



भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9—सितम्बर 15, 2006 (भाद्रपद 18, 1928)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9—SEPTEMBER 15, 2006 (BHADRA 18, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2006

संख्या 440, दिनांक 9 अगस्त 2006—राष्ट्रपति, आई सी ओ ए एस (89) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री के. शैष्या को 15.6.2006 (पूर्वाह्न) से 1.1.2009 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग के सहायक श्री मुनीश कुमार का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 19 जून, 2006 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह इस मंत्रालय की 21 जून, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री पवन कुमार का नाम वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर

उन्हें 19 जुलाई, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री राणा सेन गुप्ता का नाम वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 19 जुलाई, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती
उप सचिव

थल सेना विभाग/एम जी ओ/ई एम ई कार्मिक

संख्या 441, दिनांक 10 अगस्त, 2006—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र सिंह डागर (जेसी-747591के), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार गोविन्द सिंह रावत (जेसी-747836पी), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार गिरीष चन्द्र भट्ट (जेसी-747478पी), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार गजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जेसी-747770के), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार पुरन चन्द (जेसी-747529एक्स), 01 मार्च 2005
 सूबेदार मथाई के जे (जेसी-747814डब्ल्यू), 01 मार्च 2005
 सूबेदार मनोज कुमार त्रिपाठी (जेसी-747583एल), 01 मार्च 2005
 सूबेदार राजेन्द्र सिंह असवाल (जेसी-748137डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार अनिरुध राय (जेसी-747518एल), 23 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2005*
 सूबेदार मुल चन्द शर्मा (जेसी-747812एल), 03 मई 2005/01 मई 2005*
 सूबेदार सलामत खान भाटिया (जेसी-748192एम), 01 मई 2005
 सूबेदार बी पी सिंह (जेसी-747636वाई), 02 मई 2005/01 मई 2005*
 सूबेदार परेश चन्द्र बिसवास (जेसी-747774ए), 01 मई 2005
 सूबेदार आर काशिनाथन (जेसी-747533ए), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-747479एक्स), 02 मई 2005/01 मई 2005*
 सूबेदार दिलीप सिंह राणा (जेसी-747654एफ), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार रघू राज सिंह (जेसी-747650एल), 01 मार्च 2005
 सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-747828डब्ल्यू), 01 मई 2005
 सूबेदार रमेश लाल सैनी (जेसी-747795डब्ल्यू), 01 मई 2005
 सूबेदार मेजर आरटिजन (ई सी) के रैंक में
 सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-750930के), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में
 सूबेदार विजया गोपाल (जेसी-748559एफ), 01 मई 2005
 सूबेदार मेजर आरटिजन (एन ई) के रैंक में
 सूबेदार बुध कुमार दास (जेसी-749096एम), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार मेजर ब्रलर्क (जी डी) के रैंक में
 सूबेदार हरि किशन चौधरी (जेसी-747038एफ), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार मेजर डी डब्ल्यू के रैंक में
 सूबेदार जवाहर लाल (जेसी-751283एफ), 01 मई 2005
 सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-750678डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005
 सूबेदार मेजर रिकवरी मैक के रैंक में
 सूबेदार के सुब्रमनियम (जेसी-748771वाई), 08 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में
 सूबेदार सतेन्द्र सिंह (जेसी-747859डब्ल्यू), 25 जुलाई 2005/01 जून 2005*
 सूबेदार गोपा कुमार पी के (जेसी-748220एन), 01 सितम्बर 2005
 सूबेदार बिहारी लाल (जेसी-748294ए), 01 नवम्बर 2005
 सूबेदार पवित्रन पोलाप्पाती (जेसी-748633एक्स), 01 नवम्बर 2005
 सूबेदार मेजर आरटीज (ई सी) के रैंक में
 सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-751159ए), 01 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*
 सूबेदार मेजर आरटीज (एन ई) के रैंक में
 सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-749641एच), 01 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*
 सूबेदार बदेश्वर चौधुरी (जेसी-750821एक्स), 25 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*
 सूबेदार मेजर रिकवरी मैक के रैंक में
 सूबेदार शिवजी सिंह (जेसी-749094वाई), 09 अक्टूबर 2005
 सूबेदार रमेश चन्द्र पुरोहित (जेसी-749025ए), 01 नवम्बर 2005
 सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में
 नायब सूबेदार रवीन्द्रन एम (जेसी-755772के), 01 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*
 नायब सूबेदार फूल चन्द्र (जेसी-756298एन), 09 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*
 नायब सूबेदार रनवीर सिंह तनवार (जेसी-755934के), 12 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*
 नायब सूबेदार दिलीप चन्द्र (जेसी-755932वाई), 22 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*
 नायब सूबेदार सुधर लाल पाल (जेसी-755774पी), 22 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*
 नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-755765एन), 10 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*
 नायब सूबेदार कलाने रामदेव डनयानडेव (जेसी-755773एम), 21 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*
 नायब सूबेदार एस एस के राव साहेब (जेसी-755847डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार ओ पी सिंह (जेसी-755785एफ), 22 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*
 नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-755777एच), 21 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-755762ए), 07 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार बरमेश्वर सिंह (जेसी-755763एच), 12 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार बेहेरा (जेसी-755781एल), 11 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-755787एम), 08 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार रविन्द्रा कुमार (जेसी-755767वाई), 11 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार सनन्त कुमार प्रधान (जेसी-755678ए), 02 नवम्बर
2005/01 अगस्त 2005*

नायब सूबेदार नेम सिंह (जेसी-756186एन), 11 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-755898के), 08 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार भोला झा (जेसी-755879वाई), 23 नवम्बर 2005/
01 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-755862एल), 22 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार वेनुगोपालन नायर जी (जेसी-755875एच), 11 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार भक्त रन्जन महन्ती (जेसी-755872पी), 17 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार जाकिर हुसैन मन्डल (जेसी-755713एक्स), 02 नवम्बर
2005/01 अगस्त 2005*

नायब सूबेदार के ए मोल्लाह (जेसी-755503एक्स), 18 अक्टूबर
2005/01 जुलाई 2005*

नायब सूबेदार फूल बदन गिरी (जेसी-755843ए), 07 नवम्बर
2005/01 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार सुरेश सिंह यादव (जेसी-755841पी), 10 नवम्बर
2005/01 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार सुरात सिंह (जेसी-755850डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2005/
01 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार जय पाल (जेसी-755849एफ), 11 नवम्बर 2005/
01 नवम्बर 2005*

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार उमा शंकर सिंह (जेसी-757055पी), 22 नवम्बर
2005/28 जून 2005*

नायब सूबेदार मुरलीधर सिंह (जेसी-757090एक्स), 18 मार्च 2005/
01 सितम्बर 2005*

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार हरि नारायण (जेसी-756023ए), 07 अक्टूबर 2005/
01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार गोपाल उपाध्याय (जेसी-756172एल), 08 नवम्बर
2005/01 नवम्बर 2005*

सूबेदार आरटीजन ई सी (एविएसन) के रैंक में

नायब सूबेदार जयकरन सिंह खीचर (जेसी-756202ए), 03 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार चन्द पाल सागवान (जेसी-756333एल), 08 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार मुकुट चन्द्रा मेहदी (जेसी-754111एक्स), 07 नवम्बर
2005/01 अगस्त 2005*

नायब सूबेदार कोमल प्रसाद गोहिल (जेसी-754197एफ), 14 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-756073एल), 06 नवम्बर
2005/01 फरवरी 2004*

नायब सूबेदार कामेश्वर पान्डे (जेसी-756834एल), 17 नवम्बर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार मुन्जे मन्वर याल्लाप्पा (जेसी-756350एल), 19 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार दिलीप कुमार मन्डल (जेसी-756303एन), 01 नवम्बर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार कर्मबीर सिंह (जेसी-756126वाई), 30 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार विगन शर्मा (जेसी-756255वाई), 20 अक्टूबर 2005/
01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार रमेशन एम (जेसी-756256एफ), 21 अक्टूबर 2005/
01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार एम कृष्णन (जेसी-756306एफ), 22 अक्टूबर 2005/
01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार मोहन कुमार सिंह (जेसी-756304डब्ल्यू), 12 नवम्बर
2005/01 सितम्बर 2005*

सूबेदार ड्राईवर के रैंक में

नायब सूबेदार रघु पी जी (जेसी-757525पी), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सिरज मन्डल (जेसी-756555ए), 08 नवम्बर 2005/
01 सितम्बर 2004*

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार ब्रिज मोहन लाल दिक्षित (जेसी-748631एम), 01 अक्टूबर
2005

सूबेदार श्याम मुरारी (जेसी-748242एम), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद यादव (जेसी-748292एक्स), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर आरटीजन (ई सी) के रैंक में

सूबेदार रिशी पाल सिंह (जेसी-751315वाई), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार नरायन चन्द्र दास (जेसी-755908एच), 25 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार जितेन्द्र कुमार (जेसी-755783डब्ल्यू), 09 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार राजा कुआर (जेसी-755771एफ), 16 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार एस भुपथी (जेसी-755933एफ), 22 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार विन्देश्वरी प्रसाद (जेसी-755779एन), 23 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार मोहन लाल त्रिपाठी (जेसी-755768एफ), 14 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-755769के), 14 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार विमल कुमार (जेसी-755778एल), 12 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार गिरबर सिंह (जेसी-755782एन), 14 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह बिस्ट (जेसी-755786के), 28 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार बोर्से पन्डुरंग राजाराम (जेसी-755444डब्ल्यू), 14 अक्टूबर 2005/28 जून 2005 *

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र (जेसी-755970पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह गुसाई (जेसी-755874ए), 12 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार राम बाबू शर्मा (जेसी-755878डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार ए के दास (जेसी-755484एक्स), 19 सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार रोहितास्व लाम्बा (जेसी-755877एन), 30 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार जिवन चन्द्र लोवहा (जेसी-755846एन), 12 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार मदन कुमार सिंह (जेसी-755848वाई), 14 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार ललन यादव (जेसी-755844एच), 28 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार शैलेन्द्र दुबे (जेसी-755897एफ), 19 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार मंगल राम (जेसी-755889वाई), 10 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार जवाहर लाल (जेसी-753393पी), 12 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार आर गुनाचन्द्रन (जेसी-755760पी), 10 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-757341डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2005/01 अगस्त 2005 *

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-756520के), 11 अक्टूबर 2005/28 जून 2005 *

नायब सूबेदार बिमल किशोर शर्मा (जेसी-756918वाई), 22 नवम्बर 2005/28 जून 2005 *

नायब सूबेदार उदय वीर सिंह यादव (जेसी-757089एच), 24 नवम्बर 2005/28 जून 2005 *

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-757269एल), 04 दिसम्बर 2005/28 जून 2005 *

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-757274डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2005/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार बी एल नरसिमालू (जेसी-757770एक्स), 21 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार सुशील रन्जन पाल (जेसी-754922एच), 24 नवम्बर 2005/04 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार पी सी घोस (जेसी-757163वाई), 24 नवम्बर 2005/28 जून 2005 *

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार विशू पापा मिश्रा (जेसी-756087एल), 21 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार श्री पाल सिंह सोम (जेसी-756174वाई), 18 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार रामानन्द यादव (जेसी-754198के), 23 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

सूबेदार ड्राईवर के रैंक में

नायब सूबेदार अमरेश कुमार वर्मा (जेसी-756843एम), 25 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार प्रवीर कुमार कर (जेसी-757514एन), 21 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-757566वाई), 24 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005 *

नायब सूबेदार राम चन्दर शर्मा (जेसी-757824एन), 28 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

सूबेदार आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-755820वाई), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार गुरमेज सिंह (जेसी-756179एक्स), 21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार ब्रजमोहन सिंह कुशवाहा (जेसी-756254डब्ल्यू), 26 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार राम नरेश सिंह (जेसी-756531एम), 22 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार शेक अशराफुद्दिन (जेसी-756315एच), 28 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार नरायन चन्द्र जोशी (जेसी-756723एन), 25 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी-756835एन), 28 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार कल्लभोर प्रकाश नरायन (जेसी-756837वाई), 21 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

नायब सूबेदार जी एम पानीकर (जेसी-752266एन), 01 नवम्बर 2005/01 मार्च 2004 *

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार किशन सिंह खोलिया (जेसी-747279एफ), 23 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005 *

सूबेदार बिरेन्द्र नाथ घोष (जेसी-747133एन), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार मोहन लाल (जेसी-747579एच), 22 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 *

सूबेदार राम उदर प्रसाद ठाकुर (जेसी-747473डब्ल्यू), 04 मार्च 2005/01 जनवरी 2005 *

सूबेदार राना विनोद कुमार सिंह (जेसी-747711एक्स), 01 मार्च 2005

सूबेदार सुबे सिंह (जेसी-747809एल), 22 मार्च 2005/01 जनवरी 2005 *

सूबेदार रामा शंकर प्रसाद (जेसी-747655के), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी डी) के रैंक में

सूबेदार के पी वानखेडे (जेसी-747040वाई), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार मेजर (डी डब्ल्यू) के रैंक में

सूबेदार सत्य वीर सिंह (जेसी-750677एन), 01 मार्च 2005

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार कलापथी व्ही रवि बाबू (जेसी-755001पी), 19 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004 *

नायब सूबेदार श्रीनिवास राव पी व्ही (जेसी-755487एल), 01 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004 *

नायब सूबेदार जरनाइल सिंह (जेसी-755471ए), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार विश्वनाथ प्रसाद (जेसी-755474एन), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार चैतन्य करमाकर (जेसी-755707के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार बरिस्तर तिवारी (जेसी-754251के), 01 मार्च 2005/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार समुद्र गुप्ता (जेसी-755011वाई), 01 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार सरमोतिया (जेसी-755717एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-755492डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार बलजित सिंह (जेसी-755002एक्स), 03 मार्च 2005/08 दिसम्बर 2004 *

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार शाकीया (जेसी-755616ए), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार वेंकाप्पा शेड्टी एम (जेसी-755571एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार इब्राहिम खान (जेसी-755558एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-755567एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार गिरीष जोशी (जेसी-755615एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रंजीत सिंह जाट (जेसी-755673एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार निरंजन पाण्डा (जेसी-755587डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बलबिन्दर सिंह (जेसी-755704डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-755581पी), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार पमूला लुकाप्रसाद राव (जेसी-755552ए), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-755362एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जी बी आत्माराम (जेसी-755580एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार लाभ सिंह (जेसी-755564पी), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार मुकेश कुमार (जेसी-755360एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रनबीर सिंह मिनहास (जेसी-755586एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-755359एन), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार स्तनोय जोसेफ (जेसी-755561एफ), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार उदय नारायण (जेसी-755560वाई), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार रामअवतार सिंह (जेसी-755562के), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार डी मन्थार विश्वनाथजी (जेसी-755617एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बिरेन्द्रा प्रसाद (जेसी-755525डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद सिंह (जेसी-755465एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार केनगम सुर्खा राव (जेसी-755255एफ), 18 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-7560004डब्ल्यू), 01 मार्च 2005
 नायब सूबेदार सिसपाल सिंह (जेसी-755460एन), 12 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार गुलिंगरी अमरनाथ (जेसी-753609एल), 16 मार्च 2005/01 नवम्बर 2002*

नायब सूबेदार बमानिया विजय कुमार एस (जेसी-755568एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार राजमल (जेसी-755582एक्स), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार समेय सिंह (जेसी-755524एच), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-755527एफ), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार रमेश कुमार के (जेसी-755365एफ), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-755563एम), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार एम रमेश (जेसी-755366के), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार विजया केतनकर (जेसी-755525वाई), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार एस आर राम भीमराव (जेसी-755569एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जवार सिंह (जेसी-755573डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार नारायनन के पी (जेसी-755576के), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार रामबीर (जेसी-755585एल), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार राजबीर सिंह शाहरावत (जेसी-757212डब्ल्यू), 21 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार जनक राज (जेसी-756713के), 28 मार्च 2005/01 फरवरी 2004*

नायब सूबेदार विजय कुमार उपाध्याय (जेसी-755827एच), 28 मार्च 2005/08 दिसम्बर 2004*

नायब सूबेदार अनन्दा राज के (जेसी-755943एल), 24 मार्च 2005/01 सितम्बर 2003*

नायब सूबेदार राम सेवक (जेसी-757085एम), 16 मार्च 2005/01 अगस्त 2004*

नायब सूबेदार राम लाल यादव (जेसी-757270ए), 23 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

सूबेदार आरटीजन (एनई) के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्र प्रताप पाण्डे (जेसी-754529ए), 21 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

नायब सूबेदार चन्द्रीका प्रसाद तिवारी (जेसी-754536डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

नायब सूबेदार सुभाष तातीबा (जेसी-751909एन), 28 मार्च 2005/01 अक्टूबर 2001*

नायब सूबेदार केशप्पा (जेसी-752309एक्स), 28 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-756948डब्ल्यू), 21 मार्च 2005/08 दिसम्बर 2004*

नायब सूबेदार देव करन मीना (जेसी-756345ए), 04 जनवरी 2005/01 अगस्त 2004*

नायब सूबेदार नन्द लाल सिंह (जेसी-755986ए), 05 अप्रैल 2005/08 दिसम्बर 2004*

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-753867एल), 01 जनवरी 2005

सूबेदार मेजर टेक्नीकल (ईसी) के रैंक में

सूबेदार दविड जान (जेसी-748497एम), 22 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

सूबेदार सुरीन्द्र सिंह (जेसी-748105एन), 01 अगस्त 2005

सूबेदार ब्रज बिहारी मिश्रा (जेसी-748214ए), 01 अगस्त 2005

सूबेदार मेजर आरटीजन (ई सी) के रैंक में

सूबेदार प्यारे लाल (जेसी-751198वाई), 02 मई 2005/01 मई 2005*

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार सथिश के (जेसी-755519एच), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-755355एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार दुली चन्द झाटिया (जेसी-755554एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार अम्बीका प्रसाद आनंद (जेसी-754523वाई), 02 जून 2005/01 दिसम्बर 2003*

नायब सूबेदार ललित मोहन तिवारी (जेसी-755534एक्स), 20 जून 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार करमबिर सिंह शाहरावत (जेसी-754950पी), 28 जून 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार जे सेलवम (जेसी-755536के), 21 जून 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार हिरेश नाथ (जेसी-753452डब्ल्यू), 30 जून 2005/01 जून 2005 *

नायब सूबेदार मोहन तिवारी (जेसी-755538एन), 15 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार धिर सिंह (जेसी-755540एल), 16 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार विजयन जी (जेसी-755636एन), 10 जून 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार रवि शंकर केसरी (जेसी-755638वाई), 20 जून 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार अनिल कुमार शुक्ला (जेसी-755643के), 05 जुलाई 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार सामल (जेसी-755649एल), 21 जुलाई 2005/01 जून 2005 *

नायब सूबेदार मिथिलेश गुप्ता (जेसी-755652एल), 13 जुलाई 2005/01 जून 2005 *

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-755655वाई), 16 जुलाई 2005/01 जून 2005 *

नायब सूबेदार ए के राय (जेसी-755714ए), 23 जून 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह रावत (जेसी-756297एल), 01 जून 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार गिरीजा शन्कर (जेसी-755859एल), 16 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

सूबेदार टेक्नीकल (एवियेशन) के रैंक में

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-756497एफ), 06 जून 2005/01 मार्च 2005 *

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार तारा चन्द्र जोशी (जेसी-753707एल), 04 जुलाई 2005/01 सितम्बर 2004 *

नायब सूबेदार सत्यबिर सिंह (जेसी-753956के), 23 मई 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-754002एल), 21 जुलाई 2005/01 जून 2005 *

सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

नायब सूबेदार शाम लाल शर्मा (जेसी-752312एक्स), 08 जून 2005/01 मई 2005 *

नायब सूबेदार के बी एल सिंहा (जेसी-747044पी), 26 मई 2005/01 मई 2005 *

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार वी के मिश्रा (जेसी-755999एक्स), 25 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार मुन्डे समभाजी सनीवन राव (जेसी-755670एन), 20 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार एस के सिन्हा (जेसी-757233एच), 08 दिसम्बर 2005/01 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार मोहित विलास लक्ष्मन (जेसी-755893एल), 11 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार परशुराम इनालागी (जेसी-755979के), 25 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार नेकी राम (जेसी-755972ए), 27 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह चाहर (जेसी-755930एन), 06 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार प्रवीन कुमार सिवाच (जेसी-755929वाई), 17 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार देवानन्द शुक्ला (जेसी-755788पी), 29 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार शहाजी नन्द नायक (जेसी-755909एल), 12 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-755776ए), 01 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार ससीधरन सी (जेसी-755758एक्स), 31 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-755780एच), 07 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार चन्द्र मोहन सिंह (जेसी-755894एन), 28 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार सुशील कुमार सिंह (जेसी-755892एच), 01 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार एन जे सुब्रामनीअन (जेसी-755890एक्स), 17 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार श्रीपद राजा राव (जेसी-755891ए), 15 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार एन रवी (जेसी-756294एक्स), 06 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार वन्दकान्त हलाली (जेसी-755854एम), 26 दिसम्बर
2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-755900डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार शुशील कुमार (जेसी-756011एल), 24 दिसम्बर
2005/01 दिसम्बर 2005*

सूबेदार आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार मोहन चन्द्र (जेसी-756077एफ), 26 दिसम्बर 2005/
01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार गर्जा सिंह (जेसी-757087एक्स), 24 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार सचिदानन्द सिंह (जेसी-756725वाई), 10 दिसम्बर
2005/01 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-756838एफ), 13 दिसम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार राम प्रसाद बोरा (जेसी-756722एल), 21 दिसम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार राय (जेसी-756721एच), 02 दिसम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार जिनत अली (जेसी-756718एच), 17 नवम्बर 2005/
01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार ठाकुर दास (जेसी-756724डब्ल्यू), 19 दिसम्बर
2005/01 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-756079एम), 12 अक्टूबर 2005/
01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-756122एच), 02 दिसम्बर 2005/
01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार अरून कुमार सिंह (जेसी-756081के), 07 नवम्बर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार दुवे राजेन्द्र लक्ष्मण पी डी (जेसी-756121ए),
14 दिसम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार सुशील कुमार यादव (जेसी-755971एक्स),
27 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार दशरथ लाल (जेसी-757245एफ), 16 दिसम्बर
2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार राजीव शर्मा (जेसी-757273एन), 30 नवम्बर 2005/
01 जुलाई 2005*

नायब सूबेदार हरी राम जाखर (जेसी-757208एन), 20 दिसम्बर
2005/01 जून 2005*

नायब सूबेदार बली राम पान्डेय (जेसी-757334ए), 28 दिसम्बर
2005/01 जून 2005*

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-757951एच), 27 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार मधुशूदन पिल्लई वी सी (जेसी-757093एल),
23 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2004*

नायब सूबेदार एस प्रभाकर (जेसी-757255एल), 02 दिसम्बर
2005/28 जून 2005*

नायब सूबेदार मोहन सिंह ककी (जेसी-757811डब्ल्यू), 27 नवम्बर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार सी एस तिवारी (जेसी-757262एफ), 28 नवम्बर
2005/01 जुलाई 2005*

सूबेदार ड्राईवर के रैंक में

नायब सूबेदार बदन सिंह (जेसी-757521वाई), 17 नवम्बर 2005/
01 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार समसुद्दीन अन्सारी (जेसी-757563एल), 16 दिसम्बर
2005/01 अगस्त 2005*

नायब सूबेदार पुरन कान्त नाथ (जेसी-757384एल), 01 दिसम्बर
2005/01 अगस्त 2005*

नायब सूबेदार सुजान सिंह (जेसी-758058पी), 29 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार पुरन कान्त बोरहा (जेसी-757574एक्स), 05 दिसम्बर
2005/01 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार शिव शंकर सिंह (जेसी-756947एन), 26 नवम्बर
2005/28 जून 2005*

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-754204एम), 26 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जेसी-754163के), 09 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार शिवा एम (जेसी-756175पी), 26 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार बगाराम (जेसी-756086एच), 21 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

हवलदार रमा कान्त पाण्डे (14537885डब्ल्यू अब जेसी-760502वाई),
01 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार खीर मोहन सरकार (14545656ए अब जेसी-760504के),
25 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार राम प्रवेश प्रसाद (14544918वाई अब जेसी-760506पी),
20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार दिलीप कुमार यादव (14544927ए अब जेसी-760507 एक्स), 19 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार सत्य नारायण (14545744डब्ल्यू अब जेसी-760508), 02 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

हवलदार अर्जुन सिंह (14547258एक्स अब जेसी-760413ए), 30 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार महालिंगम टी (14547390एक्स अब जेसी-760513एल), 23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

हवलदार हरी धानी सिंधा (14548849एल अब जेसी-760511ए), 30 जनवरी 2006/04 दिसम्बर 2005*

हवलदार लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह (14544924एम अब जेसी-760533वाई), 28 जनवरी 2006/07 जुलाई 2005*

हवलदार वेद प्रकाश (14549123पी अब जेसी-760534एफ), 27 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मिथ के रैंक में

हवलदार कमल देव प्रसाद (14551171एल अब जेसी-760414एच), 12 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (14546491वाई अब जेसी-760514एन), 28 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (ए एफ वी) के रैंक में

हवलदार अजिथ लाल एस डी (14543567एच अब जेसी-760478 एम), 03 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफ वी) के रैंक में

हवलदार सोमवीर सिंह (14538963पी अब जेसी-760537पी), 01 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (एम वी) के रैंक में

हवलदार सास्वता भट्टाचार्य (14539697एन अब जेसी-760398 डब्ल्यू), 09 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार तहाजुल हक (14539700एच अब जेसी-760540पी), 28 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (रडार) के रैंक में

हवलदार विजय सिंह यादव (14676600के अब जेसी-760403 डब्ल्यू), 17 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

हवलदार माधवन एम पी (14559680एफ अब जेसी-760496डब्ल्यू), 20 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार डी एस नायकुडे (14558590एन अब जेसी-760497वाई), 10 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोर के रैंक में

हवलदार वी के पान्डे (14548177के अब जेसी-760202एक्स), 04 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार राम लाल (14550229एम अब जेसी-760488एक्स), 30 दिसम्बर 2006/01 सितम्बर 2005*

हवलदार श्याम बिहारी (14548416एन अब जेसी-760491एक्स), 10 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार राजवीर सिंह (14551428एन अब जेसी-760493एच), 28 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार श्रीचन्दन (14559024ए अब जेसी-760542 ए), 28 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार परशुराम सामल (14559029वाई अब जेसी-760543एच), 22 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार दीपक प्रसाद सिंह (14561464एम अब जेसी-760545एन), 22 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार हरि प्रसाद पौरैल (14560470एन अब जेसी-760548एफ), 24 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार भरत चन्द्र भरालि (14561597एच अब जेसी-760546डब्ल्यू), 27 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार रमेश चन्द्र माल (14555801ए अब जेसी-760541एक्स), 22 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार राज सिंह (14561647एच अब जेसी-760589एल), 09 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार पाटिल सदाशिव श्रीपति (14561643एम अब जेसी-760588 एच), 10 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोर के रैंक में

हवलदार बी विश्वनाथ राव (14551321वाई अब जेसी-760582एफ), 08 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार ब्रह्म दत्त (14548377ए अब जेसी-760583के), 11 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार निरजीत दौरा (14551399के अब जेसी-760575एल), 11 मार्च 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

हवलदार नरेश चन्द्र माली (14545132वाई अब जेसी-760565एफ), 08 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार शबीर अहमद (14545103के अब जेसी-760561एल),
08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार दुर्बिन सिंह (14545122पी अब जेसी-760563डब्ल्यू),
09 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार त्रिभुवन मिश्रा (14545099एम अब जेसी-760555एक्स),
03 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार यू बी षण्मुखा आर (14542357डब्ल्यू अब जेसी-760556ए),
08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार कतिराम बसुमतरी (14539505एल अब जेसी-760549के),
09 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार सुरेश राय (14545133एफ अब जेसी-760566के), 08 मार्च
2006/01 मार्च 2006*

हवलदार बी बी जेना (14542925डब्ल्यू अब जेसी-760552के),
07 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफ वी) के रैंक में

हवलदार राम अयोध्या सिंह (14538399एल अब जेसी-760536एम),
20 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम आर के रैंक में

हवलदार उदय प्रसाद राय (14543823एम अब जेसी-760479डब्ल्यू),
09 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

एच एम टी से नायब सूबेदार आरमोर के रैंक में

एच एम टी शाम लाल (14607791वाई अब जेसी-760531एन),
08 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी दया शंकर यादव (14613460एन अब जेसी-760530एल),
28 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी आर षण्मुगराज (14613633ए अब जेसी-760622एक्स),
10 मार्च 2006/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में

एच एम टी राम प्रकाश ठाकुर (14593083वाई अब जेसी-760526
एच), 27 जनवरी 2006/25 दिसम्बर 2005*

एच एम टी ओम प्रकाश शर्मा (14611447एल अब जेसी-760462
एच), 12 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी नरेश कुमार (14608866एक्स अब जेसी-760449वाई),
12 जनवरी 2006/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी अयोधि जी (14612496ए अब जेसी-760524एक्स),
31 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

एच एम टी जे जगदीशन (14611930पी अब जेसी-760522एम),
01 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

एच एम टी निहार कान्त रथ (14589194वाई अब जेसी-760447एन),
12 जनवरी 2006/23 अक्टूबर 2005*

एच एम टी दशरथ सिंह (14611999वाई अब जेसी-760523पी),
05 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

एच एम टी सुनीत मैसी (14609661पी अब जेसी-760327पी),
01 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी महेन्द्र सिंह नदिया (14613110पी अब जेसी-760525ए),
31 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी जयराम पी बी (14611801पी अब जेसी-760463एल),
17 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

एच एम टी अरूण कुमार डोगरा (14612418एच अब जेसी-760605
एक्स), 13 मार्च 2006/01 नवम्बर 2005*

एच एम टी सरोज कुमार परही (14610912ए अब जेसी-760604पी),
04 मार्च 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी टी वर्धीस (14611265एक्स अब जेसी-760521के),
30 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी रुख चन्द साहु (14609347एफ अब जेसी-760603एम),
09 मार्च 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वेहिकल के रैंक में

एच एम टी सिंह राम (14609367पी अब जेसी-760516वाई),
06 फरवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी अरूण कुमार शर्मा (14612658ए अब जेसी-760520एफ),
27 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी प्रकाश चन्द्र पंत (14611048एफ अब जेसी-760518के),
30 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी एस सी मोहन्ता (14610603एक्स अब जेसी-760517एफ),
30 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

एच एम टी हीरा लाल (14587056वाई अब जेसी-760527एल),
01 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

एच एम टी कार्तिक राय (14606425एच अब जेसी-760620एम),
08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रूमेंट के रैंक में

एच एम टी प्रदीप परमार (14606821वाई अब जेसी-760532डब्ल्यू),
30 जनवरी 2006/18 दिसम्बर 2005*

एच एम टी राजेश कुमार कुमावाय (14609899पी अब जेसी-
760471के), 20 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी सचीन्द्र सम्मल (14605087के अब जेसी-760609एन),
13 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

एच एम टी शेर सिंह (14599006ए अब जेसी-760473पी), 01 जनवरी
2006

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

हवलदार मोहन सिंह (14544032एफ अब जेसी-760573ए), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार बलवीन्दर सिंह (14544033के अब जेसी-760572एक्स), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

हवलदार ए अस्तांडु (14550020एच अब जेसी-760595वाई), 14 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार सूर्यनारायण तिवारी (14550488डब्ल्यू अब जेसी-760599पी), 13 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार सुल्तान सिंह (14550313एन अब जेसी-760597के), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार मिर्जकर शिवाजी मलहरि (14549228वाई अब जेसी-760512एच), 30 जनवरी 2006/05 दिसम्बर 2005 *

हवलदार सिरासपल्लाल नूक राजु (14549243एन अब जेसी-760510एक्स), 30 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार चन्द्र सिंह (14547200ए अब जेसी-760535के), 04 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार बीरेन्द्र कुमार (14550063एक्स अब जेसी-760596एफ), 11 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (एम वी) के रैंक में

हवलदार नटर कुमार (14607744पी अब जेसी-760633के), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार काशी नाथ दास (14603631एफ अब जेसी-760640ए), 01 मार्च 2006

हवलदार बलवान सिंह (14591373एक्स अब जेसी-760629एफ), 10 मार्च 2006/01 अक्टूबर 2005 *

हवलदार महेश चन्द्रा (14583485एच अब जेसी-760268एन), 28 फरवरी 2006/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार मनोज कुमार राय (14609364एफ अब जेसी-760635पी), 10 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मेक के रैंक में

हवलदार जोतिन बोरा (14554054एन अब जेसी-760600वाई), 09 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार अनिल कुमार प्रसाद (14554076एम अब जेसी-760601एफ), 11 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार सचिदानन्दा सिंह (14553412एफ अब जेसी-760515डब्ल्यू), 05 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

हवलदार सुखविन्दर सिंह (14548131एफ अब जेसी-760539ए), 02 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार पाटिल लक्ष्मण विथोबा (14558223एफ अब जेसी-760538एक्स), 08 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक 'बी' वैहिकल के रैंक में

एच एम टी राकेश सिंह बिस्ट (14612117वाई अब जेसी-759829एल), 13 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 *

एच एम टी सुनिल कुमार मिश्रा (14608911वाई अब जेसी-759821वाई), 19 अप्रैल 2005/01 दिसम्बर 2004 *

एच एम टी हुकाला चन्द्र सेखर (14609624एफ अब जेसी-759822एफ), 11 अप्रैल 2005/01 दिसम्बर 2004 *

एच एम टी सुभाष सिंह (14609444वाई अब जेसी-759850एन), 06 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *

एच एम टी राधा कृष्णन (14584673डब्ल्यू अब जेसी-759825पी), 25 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005 *

एच एम टी आज्ञा राम (14611621एम अब जेसी-759882डब्ल्यू), 29 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *

एच एम टी राम निवास गुरजर (14592654ए अब जेसी-759883वाई), 02 मई 2005/01 मई 2005 *

एच एम टी दया नन्द प्रधान (14611853एल अब जेसी-759878एन), 30 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 *

एच एम टी सतिश कुमार (14593895एम अब जेसी-759859एच), 02 मई 2005/01 मई 2005 *

एच एम टी त्रिलोचन थटोई (14596278पी अब जेसी-759862एच), 06 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *

एच एम टी रविन्द्र नाथ दास (14598344एल अब जेसी-759861ए), 01 मई 2005

एच एम टी नरेश कुमार (14586876वाई अब जेसी-759856पी), 01 मई 2005

एच एम टी रन्जीत सिंह (14612087एम अब जेसी-759855एम), 01 मई 2005

एच एम टी सरोज सामल (14607405एफ अब जेसी-759869एम), 30 अप्रैल 2005/01 अक्टूबर 2004 *

एच एम टी वेद प्रकाश (14593592एक्स अब जेसी-759857एक्स), 01 मई 2005

एच एम टी जितेन्द्र कुमार सिंह (14610414एन अब जेसी-759852वाई), 29 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक "आई एन पी" के रैंक में

एच एम टी अवतार सिंह (14567945पी अब जेसी-759871के), 04 मई 2005/01 मार्च 2005 *

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आर ओ के रैंक में

एच एम टी टी वेन्कट गोपाला कृष्णा (14592117पी अब जेसी-759800एच), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी मनोहर सिंह राठौर (14602524एन अब जेसी-759808पी),
01 अप्रैल 2005

एच एम टी अलमोइडा डेविड मानवोल (14604301पी अब जेसी-759810एम), 01 मई 2005

एच एम टी भनवर सिंह (14577771एम अब जेसी-759815एल),
01 मई 2005

एच एम टी सुनिल कुमार (14574376पी अब जेसी-759814एच),
03 मई 2005/01 मई 2005*

एच एम टी शेष कुमार सिंह (14609307ए अब जेसी-759812एक्स),
01 मई 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेंट मैक के रैंक में

एच एम टी विजय बहादुर (14594235एफ अब जेसी-759796एल),
14 मार्च 2005/01 अक्टूबर 2004*

एच एम टी कृष्णा कान्त तिवारी (14604255एल अब जेसी-759880
एल), 29 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (ए ई एन) के रैंक में

एच एम टी सुरेश याश विट्टीस (14574199ए अब जेसी-759874
एक्स), 30 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

एच एम टी विरेन्द्र कुमार (14574167एक्स अब जेसी-759873पी),
03 मई 2005/01 मार्च 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (ई एल ई) के रैंक में

एच एम टी बिनोद कुमार (14571796के अब जेसी-759876एच),
01 मई 2005/01 मार्च 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

एच एम टी राम बाबू गुप्ता (14583634एल अब जेसी-759879डब्ल्यू),
30 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

एच एम टी दशरथ लाल (14595968एम अब जेसी-759898एफ),
13 मई 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी चित्तरन्जन दास (14599278ए अब जेसी-759902वाई),
16 मई 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

एच एम टी खूब करन गनावार (14612032एच अब जेसी-759626एफ), 10 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी धरम सिंह (14606859एच अब जेसी-759870एफ), 30
अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मिथ के रैंक में

हवलदार अशुतोष कुमार राइ (14550314डब्ल्यू अब जेसी-759788एम), 27 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

हवलदार शिव नरेश (14553683वाई अब जेसी-759868के),
06 मई 2005/01 अप्रैल 2005*

हवलदार हरबन्स सिंह (14553676एच अब जेसी-759867एफ),
29 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार कारपेन्टर और जाइनर के रैंक में

हवलदार व्ही वाला रामन (14548787डब्ल्यू अब जेसी-759792पी),
01 मई 2005

हवलदार से नायब सूबेदार अपलोस्टर के रैंक में

हवलदार उपेन्द्र कुमार नायक (14561743के अब जेसी-759795एच),
01 मई 2005

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

हवलदार देवेन्द्र कुमार (14543013के अब जेसी-759928एन),
01 जून 2005

हवलदार कृष्णन उन्नी रे (14543456एल अब जेसी-759929डब्ल्यू),
01 जून 2005

हवलदार हरि शंकर शर्मा (14543941ए अब जेसी-759930एल),
02 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

हवलदार रामजीत (14541858के अब जेसी-759459डब्ल्यू),
08 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004*

हवलदार एम मनी (14533935वाई अब जेसी-759805के), 12 मई
2005/01 अप्रैल 2005*

हवलदार विरेन्द्र सिंह (14542336ए अब जेसी-759770डब्ल्यू),
24 मई 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार नन्देश्वर रे (14542221एम अब जेसी-759906पी), 30 मई
2005/01 मई 2005*

हवलदार आर राधाकृष्णन आर (14542366एफ अब जेसी-759908ए), 04 जून 2005/01 मई 2005*

हवलदार मान बहादुर (14542305ए अब जेसी-759910एक्स), 01 जून
2005

हवलदार सुजित कुमार सिन्हा (14542446पी अब जेसी-759909
एच), 10 जून 2005/01 मई 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार व्ही एम (एम व्ही) के रैंक में

हवलदार शिव राम यादव (14538692एच अब जेसी-759916वाई),
01 जून 2005

हवलदार जे के सिंह (14538785पी अब जेसी-759917एफ), 01 जून
2005

हवलदार सुरेन्द्र पाण्डे (14538975के अब जेसी-759918के),
01 जून 2005

हवलदार जय राम सिंह (14538889वाई अब जेसी-759919एम),
06 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार विक्रम मिश्रा (14539094एक्स अब जेसी-759920एफ),
01 जून 2005

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (लाईन) के रैंक में

हवलदार जय प्रकाश (14676536एक्स अब जेसी-759921के),
03 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

हवलदार राजेश चन्द्र मिश्रा (14544014वाई अब जेसी-759914एन),
01 जून 2005

हवलदार रोहिताश कुमार (14544023ए अब जेसी-759915डब्ल्यू),
08 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार उमा शंकर (14543992एन अब जेसी-759905एम),
01 जून 2005/01 दिसम्बर 2004*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द्र खोखर (14555923के अब जेसी-759913एल),
01 जून 2005

हवलदार सुरेन्द्र सिंह चौहान (14558001एम अब जेसी-759893एच),
04 मई 2005/01 मई 2005*

हवलदार शिव शंकर चौबे (14554581पी अब जेसी-759894एल),
13 जून 2005/01 मई 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर के रैंक में

हवलदार ए कातुराजन (14542713एल अब जेसी-760416एन),
05 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार विजय प्रकाश (14542350एम अब जेसी-760417डब्ल्यू),
23 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार शिवजी प्रसाद (14542761एल अब जेसी-760418वाई),
22 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार रोहला राम (14543143एम अब जेसी-760419एफ),
24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार बन्स राज सिंह (14542036वाई अब जेसी-760420डब्ल्यू),
31 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार ननकु राम भारती (14543489डब्ल्यू अब जेसी-760421वाई), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

* हवलदार पशुपती महतो (14543524एन अब जेसी-760422एफ),
29 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार रतन पाल सिंह (14543812ए अब जेसी-760423के),
05 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार डी बी थापा (14543960एल अब जेसी-760424एम),
17 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार ओम पाल (14543965के अब जेसी-760425पी),
02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार सुभाष कुमार (14544797एच अब जेसी-760426एक्स),
24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार बंकिम चन्द्र घोष (14545549वाई अब जेसी-760428एच),
01 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार धरम पाल सिंह (14544598पी अब जेसी-760429एल),
25 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार विनोद कुमार रावत (14544607एल अब जेसी-760430ए),
29 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार धरम पाल सिंह (14544613वाई अब जेसी-760431एच),
24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार अनार सिंह (14544632के अब जेसी-760432एल),
31 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार शिव दास (14544596के अब जेसी-760433एन),
28 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार हुक्मा राम भील (14544860एम अब जेसी-760435वाई),
31 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार दिवाकर प्रसाद ठाकुर (14544853डब्ल्यू अब जेसी-760434डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार तरकेश्वर नाथ पाण्डे (14545615डब्ल्यू अब जेसी-760436एफ), 02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार जय सिंह (14543875एच अब जेसी-760437के),
23 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार वासुदेव शर्मा (14544862एक्स अब जेसी-760438एम),
02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार राम निवास यादव (14545634एफ अब जेसी-760439पी),
12 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार अरविन्द कुमार शर्मा (14545637पी अब जेसी-760440के),
30 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार जैयाजूल जुमन (14545708के अब जेसी-760441एम),
01 जनवरी 2006

हवलदार ब्रिजेन्द्र कुमार सिंह (14544889पी अब जेसी-760442पी),
01 जनवरी 2006

हवलदार मधु सूदन मजुमदार (14545658एल अब जेसी-760443एक्स), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार महेश कुमार मिश्रा (14544904वाई अब जेसी-760444ए),
02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार राजेन्द्र गिरी (14544910एम अब जेसी-760445एच),
01 जनवरी 2006

हवलदार एस पी त्रिपाठी (14545848एक्स अब जेसी-760446एल),
01 जनवरी 2006

हवलदार चन्द्र शेखर पटेल (14542045ए अब जेसी-760503एफ),
25 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार सुशील चन्द्र कोनाई (14545661एल अब जेसी-760505
एम), 23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार श्रीकान्त कुशवाहा (14545022के अब जेसी-760509एच),
23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार व्ही एम (एम व्ही) के रैंक में

हवलदार सुनिल चन्द्र भौमिक (14537887एफ अब जेसी-759762
एक्स), 17 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005*

हवलदार हरे राम सिंह (14538847एम अब जेसी-760097एम),
29 जुलाई 2005/01 जून 2005*

हवलदार शिन्दे हेमानी अलियास (14539142एम अब जेसी-760010
ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार राम किशन यादव (14538949एच अब जेसी-760096के),
01 अगस्त 2005/06 जून 2005*

हवलदार असित दास (14538995एक्स अब जेसी-760098पी), 01
अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार अशोक कुमार सिंह (14539350एफ अब जेसी-760102
एम), 13 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार रमाकान्त तिवारी (14539513के अब जेसी-760106एच),
01 अगस्त 2005

हवलदार कार्तिक चन्द्र बिसवास (14538921एच अब जेसी-
760009एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार प्रमोद कुमार शुक्ला (14537374एम अब जेसी-760094
वाई), 23 अगस्त 2005/01 मई 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (रडार) के रैंक में

हवलदार योगेन्द्र सिंह (14539857एच अब जेसी-759922एम), 21
जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार प्रदीप कुमार पाल (14555929एल अब जेसी-760003के),
01 जुलाई 2005

हवलदार लक्ष्मण तिवारी (14555323एफ अब जेसी-759912एच),
03 जुलाई 2005/01 जून 2005*

हवलदार आर सी नायक (14557198एफ अब जेसी-760006एक्स),
01 अगस्त 2005

हवलदार लक्ष्मी कान्त सिन्हा (14559747पी अब जेसी-760004एम),
01 अगस्त 2005

हवलदार रवि नन्द सिंह (14557526के अब जेसी-760008एच),
01 अगस्त 2005

हवलदार राम किशोर (14557209एच अब जेसी-760007ए),
01 अगस्त 2005

हवलदार के एन चव्हाण (14556021एफ अब जेसी-760005पी),
01 अगस्त 2005

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

हवलदार यलाप्पा मोडेकर (14545025एक्स अब जेसी-759999पी),
01 जुलाई 2005

हवलदार रामेश्वर प्रसाद (14545213वाई अब जेसी-760000डब्ल्यू),
01 जुलाई 2005

हवलदार गौरी कान्त कचारी (14541660एल अब जेसी-760001वाई),
01 जुलाई 2005

हवलदार मोहमद रफिउद्दीन (14546789एच अब जेसी-760093
डब्ल्यू), 13 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मिथ के रैंक में

हवलदार जगराम सिंह (14550414पी अब जेसी-759931एन),
24 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार सत्यदेव मिश्रा (14550484ए अब जेसी-760091एल),
01 अगस्त 2005

हवलदार जगदीश सिंह (14550359डब्ल्यू अब जेसी-760090एच),
08 अगस्त 2005/01 जून 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेंट के रैंक में

एच एम टी अनन्द बल्लभ जोशी (14604729एफ अब जेसी-
759971पी), 29 जून 2005/01 जून 2005*

एच एम टी अशोक कुमार (14604877एम अब जेसी-760053पी),
18 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी प्रदीप कुमार नायक (14605075पी अब जेसी-760054
एक्स), 18 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी लोलर प्रसाद शुक्ला (14601612एक्स अब जेसी-
760052एम), 25 जुलाई 2005/12 जून 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए ई एन के रैंक में

एच एम टी पाटील भाउसाहेब लक्ष्मण (14575412एफ अब जेसी-
759966के), 01 जून 2005

एच एम टी राकेश बाबू यादव (14576373ए अब जेसी-760057एल),
02 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में

एच एम टी रमेश दत्त (14608554एफ अब जेसी-759820डब्ल्यू),
21 अप्रैल 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी अनिल कुमार श्रीवास्तव (14605913वाई अब जेसी-759934एफ), 02 जून 2005/01 जून 2005*

एच एम टी गंगाधर रोय (14603784एल अब जेसी-759933वाई), 02 जून 2005/01 जून 2005*

एच एम टी हायन्त सिंह (14587659पी अब जेसी-759953एम), 02 जून 2005/01 जून 2005*

एच एम टी नरेन्द्र सिंह (14574149पी अब जेसी-759947वाई), 06 जून 2005/01 जून 2005*

एच एम टी शिवाजी यादव (14604713डब्ल्यू अब जेसी-759858ए), 01 जून 2005

एच एम टी आत्मा प्रसाद (14610662के अब जेसी-759940पी), 01 जून 2005

एच एम टी अन्नादुराई एस एस (14610568ए अब जेसी-759939ए), 08 जुलाई 2005/01 जून 2005*

एच एम टी रमेश सिंह (14599569ए अब जेसी-760026एल), 01 अगस्त 2005

एच एम टी राजीव सी व्ही (14598728ए अब जेसी-760028डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

एच एम टी सुदर्शन कुमार (14599854वाई अब जेसी-760029वाई), 01 अगस्त 2005

एच एम टी अशोक कुमार सिंह (14599810एफ अब जेसी-760027एन), 01 अगस्त 2005

एच एम टी करूनाकर साहू (14595652ए अब जेसी-760019पी), 01 अगस्त 2005

एच एम टी पवित्रन के (14608002एन अब जेसी-760051के), 16 जुलाई 2005/01 जून 2005*

एच एम टी नागराजू एस (14598640डब्ल्यू अब जेसी-760023एक्स), 01 अगस्त 2005

एच एम टी आर रवि (14598157एम अब जेसी-760021एम), 01 अगस्त 2005

एच एम टी लाल सिंह (14597290एच अब जेसी-760025एच), 01 अगस्त 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

एच एम टी पी गोपाला कृष्णा (14604798एक्स अब जेसी-759996एफ), 01 जुलाई 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आर ओ के रैंक में

एच एम टी मण्डलिक मिलीन्द शान्ताराम (1459668एक्स अब जेसी-759997के), 01 जुलाई 2005

एच एम टी मनोज कुमार चतुर्वेदी (14599450डब्ल्यू अब जेसी-759998एम), 01 जुलाई 2005

एच एम टी जयधारी कुम्बर (14585295पी अब जेसी-759973ए), 01 जून 2005

एच एम टी पी के सामल (14596020एफ अब जेसी-760126डब्ल्यू), 22 जुलाई 2005/01 जून 2005*

एच एम टी अशोक कुमार (14604082वाई अब जेसी-760030एन), 01 अगस्त 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ई एल ई के रैंक में

एच एम टी विद्याचल उपाध्याय (14578784एक्स अब जेसी-760056एच), 19 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी गगन बिहारी श्वाइन (14576495के अब जेसी-760055ए), 15 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वेहिकल के रैंक में

एच एम टी सत्यवान सिंह (14572342एच अब जेसी-759994डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

एच एम टी जग मोहन सिंह (14612523वाई अब जेसी-760018एम), 01 अगस्त 2005

एच एम टी सुभाष चन्दर (14576477एफ अब जेसी-760011एच), 01 अगस्त 2005

एच एम टी वाई एस संगवान (14611205एच अब जेसी-760016एफ), 01 अगस्त 2005

एच एम टी महाविर सिंह (14612090एम अब जेसी-760017के), 01 अगस्त 2005

एच एम टी जोगिन्दर सिंह (14579260एच अब जेसी-760012एल), 01 अगस्त 2005

एच एम टी चेन्ना केश्वरा राव दोसापती (14608723एक्स अब जेसी-760014डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

एच एम टी रतन लाल शर्मा (14606445डब्ल्यू अब जेसी-760013एन), 01 अगस्त 2005

एच एम टी सुशील चन्द्र सिंह (14565150एच अब जेसी-760128एफ), 02 अगस्त 2005/12 जून 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक अर्मीअर के रैंक में

एच एम टी कृष्ण कुमार सी (14605823एक्स अब जेसी-760134पी), 27 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार अर्मीअर के रैंक में

एच एम टी सुभाषिष कुण्डु (सं. 14606342एक्स अब जेसी-760133एम), 25 जुलाई 2005/01 फरवरी 2004*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

एच एम टी जसविन्दर सिंह (सं. 14610797एल अब जेसी-760127वाई), 01 अगस्त 2005/12 जून 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

हवलदार राम नरेश (सं. 14536151एच अब जेसी-759907एक्स),
06 जून 2005/01 मई 2005×

हवलदार देग लाल शर्मा (सं. 14542452एन अब जेसी-759911ए),
06 जुलाई 2005/01 जून 2005×

हवलदार हरी राम पतार (सं. 14542721के अब जेसी-760116एम),
25 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार अवदेश सिंह (सं. 14542031ए अब जेसी-760110एल),
28 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार व्ही पी मण्डल (सं. 14542837ए अब जेसी-760120पी),
01 अगस्त 2005

हवलदार राम सिंह (सं. 14542896एम अब जेसी-760123एच),
01 अगस्त 2005

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 14542813डब्ल्यू अब जेसी-
760118एक्स), 01 अगस्त 2005

हवलदार पती राम (सं. 14542902पी अब जेसी-760124एल),
01 अगस्त 2005

हवलदार शिव भुवन त्रिपाठी (सं. 14537745के अब जेसी-760122ए),
01 अगस्त 2005

हवलदार अर्विन्द कुमार झा (सं. 14541465एन अब जेसी-760109
डब्ल्यू), 03 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार दशरथ धोण्डीबा खोत (सं. 14542798एम अब जेसी-
760111एन), 03 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार विजय कुमार सिंह (सं. 14542680एल अब जेसी-
760117पी), 03 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार पेदारला सदाशिव राव (सं. 14542318एक्स अब
जेसी-760112डब्ल्यू), 31 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार गजिन्दर चौबे (सं. 14542641एम अब जेसी-760115के),
01 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

हवलदार तरून चन्द्र कलिता (सं. 14543958एन अब जेसी-
760002एफ), 23 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार सन्तोष कुमार (सं. 14545853ए अब जेसी-760085एक्स),
01 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार धरम बिर सिंह (सं. 14545864पी अब जेसी-760086ए),
01 अगस्त 2005

हवलदार से नायब सूबेदार ए व्ही एफ (ए एफ) के रैंक में

हवलदार कदम मंगेश केशव (सं. 14538810एल अब जेसी-760100
एफ), 01 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार ए व्ही एफ (आई एन पी) के रैंक में

हवलदार मोहन बहादुर थापा (सं. 14535981एम अब जेसी-760099
एक्स), 03 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार अमॉरर के रैंक में

हवलदार पवन कुमार (सं. 14546631ए अब जेसी-760108एन),
01 अगस्त 2005/01 अप्रैल 2004×

हवलदार रमेश चन्द्र जोशी (सं. 14543786के अब जेसी-760107
एल), 01 अगस्त 2005/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मेक के रैंक में

हवलदार ब्रजा बाबू सिंहा (सं. 14553705एम अब जेसी-760088एल),
01 अगस्त 2005

हवलदार जगदीश चन्द मिना (सं. 14553723पी अब जेसी-760089
एन), 01 अगस्त 2005

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार सदासिवन के जी (जेसी-747540डब्ल्यू), 05 मई 2005/
01 मई 2005×

सूबेदार एस के शर्मा (जेसी-748219वाई), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार जय कृष्ण नन्दू (जेसी-748755एफ), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार परनाबन्धू नायक (जेसी-748197एल), 02 नवम्बर 2005/
01 नवम्बर 2005*

सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-748224के), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार विरेन्दर सिंह (जेसी-748198एन), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर आरटीजन (ई सी) के रैंक में

सूबेदार नागया हिरे नाथ (जेसी-751158एक्स), 17 अक्टूबर 2005/
01 सितम्बर 2005×

सूबेदार एम ए गपपूर (जेसी-751157पी), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-751950के), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार प्रफूल्ला कुमार पिल्ले (जेसी-751185एन), 13 अगस्त
2005/01 अगस्त 2005×

सूबेदार मेजर रिकवरी मेक के रैंक में

सूबेदार राजीमोहन पी सी (जेसी-748913एल), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-755542डब्ल्यू), 10 अगस्त 2005/
01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार जोस थोमस (जेसी-755712पी), 01 अक्टूबर 2005/
01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार जगदाले डी बी (जेसी-755690एफ), 29 अगस्त
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार कविन्दर सिंह (जेसी-755691के), 26 अगस्त 2005/
01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार आनन्द कुमार (जेसी-755683एल), 27 सितम्बर
2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह यादव (जेसी-755685डब्ल्यू), 03 अक्टूबर
2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार कृष्ण राम (जेसी-755692एम), 25 अगस्त 2005/
01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार रघूबिर सिंह (जेसी-755870के), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार शिव कुमार शर्मा (जेसी-755928डब्ल्यू), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार सुरज पाल (जेसी-755808एक्स), 03 सितम्बर
2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार मुरली-धरन टी पी (जेसी-755684एन), 28 सितम्बर
2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-755747एल), 08 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह चामर (जेसी-755622एफ), 11 अक्टूबर
2005/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार सुभाष सरकार (जेसी-755867के), 07 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-755803वाई), 08 अक्टूबर 2005/
01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार देव सिंह (जेसी-755700ए), 06 अक्टूबर 2005/
01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार एन वेन्कटेश्वरा राव (जेसी-756094एफ), 06 अक्टूबर
2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार एस एन एस यादव (जेसी-755451एन), 17 अक्टूबर
2005/01 फरवरी 2005×

नायब सूबेदार नयन बल्लभ नायक (जेसी-755753वाई), 21 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-755697एल), 01 सितम्बर
2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार एन मुथू कृष्णन (जेसी-755759ए), 05 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005×

नायब सूबेदार ए व्ही रमेश बाबू (जेसी-755931डब्ल्यू), 05 नवम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005×

नायब सूबेदार जगमोहन सिंह (जेसी-755845एल), 07 नवम्बर
2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार (जेसी-755708एम), 31 अक्टूबर
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार मोहन कुमार के पी (जेसी-755676पी), 09 नवम्बर
2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार चमन सिंह (जेसी-755761एक्स), 09 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005×

नायब सूबेदार महिपाल यादव (जेसी-752541एच), 24 अक्टूबर
2005/28 जून 2005×

नायब सूबेदार अबानी अचार्या (जेसी-755719वाई), 15 अक्टूबर
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार आर आर यादव (जेसी-755452पी), 25 अक्टूबर
2005/01 फरवरी 2005×

नायब सूबेदार रघुनाथ बहरा (जेसी-755476वाई), 27 अगस्त 2005/
01 जून 2005×

नायब सूबेदार ओमशंकर सिंह (जेसी-755755के), 06 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार अजीर बिहारी ओझा (जेसी-757281एम), 26 अगस्त
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार अमरजित सिंह (जेसी-757337एन), 09 सितम्बर
2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार अनिल कुमार मिश्रा (जेसी-757553एफ), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार चेपूरु ब्रह्मचारी (जेसी-757555एच), 13 सितम्बर
2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार एन ए फरूक्की (जेसी-756223डब्ल्यू), 30 सितम्बर
2005/28 जून 2005×

नायब सूबेदार जगदीश सिंह रावत (जेसी-756856के), 07 अक्टूबर
2005/28 जून 2005×

सूबेदार टेक्नीकल (एवियेशन) के रैंक में

नायब सूबेदार जी विजयावेल (जेसी-756501वाई), 19 सितम्बर
2005/01 जुलाई 2005×

सूबेदार आरटीजन एवियेशन के रैंक में

नायब सूबेदार लाम मादव श्वधाना राव (जेसी-754751एफ),
20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार वाई एस सिंह यादव (जेसी-754134वाई), 04 अक्टूबर
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार जे एस सिरौही (जेसी-754110पी), 29 अगस्त 2005/
01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार करतार चन्द (जेसी-754162एल), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार अमोहर के रैंक में

नायब सूबेदार मोहन दास के (जेसी-755819के), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार एस रामाचन्द्रन (जेसी-756076वाई), 21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार ओम पाल (जेसी-756078के), 21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार मिथिलेश कुमार तिवारी (जेसी-756083पी), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार धुवनदेव पाण्डे (जेसी-756084एक्स), 07 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार राम प्रयाग सिंह (जेसी-756258एम), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार भुवन चन्द्र पाठक (जेसी-756123एल), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार कृष्णा मोहन मिश्रा (जेसी-756127एफ), 20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार राज कुमार ऋषि (जेसी-756180एम), 17 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-756836डब्ल्यू), 18 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार सदासिवन के (जेसी-756719एल), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार राम नरेश (जेसी-756080एफ), 18 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार आर यू खान (जेसी-756530एन), 27 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार बालाकृष्णा त्रिपाठी (जेसी-756129पी), 31 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जेसी-756124एन), 25 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार शैलेश कुमार दुबे (जेसी-756302एल), 03 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-756125डब्ल्यू), 12 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार शिवाप्पा सी गुजनाल (जेसी-756132एम), 25 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार ब्रह्मदेव प्रसाद यादव (जेसी-756305वाई), 18 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार योगेन्द्र राम (जेसी-756534के), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार पिस सुरिन (जेसी-756532वाई), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार फकीर चन्द (जेसी-754171एल), 12 जून 2005/01 मई 2005×

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

नायब सूबेदार कार्तिक चन्द्र घोष (जेसी-757517डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार मिर नूर अली (जेसी-757516एन), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

नायब सूबेदार एन एस चौधरी (जेसी-751987एल), 07 अक्टूबर 2005/01 दिसम्बर 2001×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक 'ए' वेहिकल के रैंक में

एच एम टी अशोक केशरकर (सं. 14606322के अब जेसी-760245एम), 08 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी भगवान सहाय जाट (सं. 14609371एक्स अब जेसी-760320एल), 20 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक 'बी' वेहिकल के रैंक में

एच एम टी अरीगेला सूर्यनरायन (सं. 14609706के अब जेसी-760263पी), 22 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी महेन्द्र सिंह (सं. 14607369पी अब जेसी-760237एन), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी राम प्रकाश (सं. 14608512पी अब जेसी-760247एक्स), 19 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी अमरजीत सिंह (सं. 14608634वाई अब जेसी-760252एच), 19 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी एस वसीमलाई (सं. 14610275पी अब जेसी-760330पी), 19 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी अनुराज जिर्गयाल (सं. 14612827डब्ल्यू अब जेसी-760338एफ), 19 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी राम किशन (सं. 14609386ए अब जेसी-760325के), 17 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी भाग्याधर बिसवाल (सं. 14607414एच अब जेसी-760319डब्ल्यू), 17 दिसम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

एच एम टी बिद्या नाथ सिंह (सं. 14599904वाई अब जेसी-760355एफ), 18 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी ओम प्रकाश (सं. 14572489वाई अब जेसी-758444एफ), 23 दिसम्बर 2003/01 जुलाई 2003*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आरमोरर के रैंक में

एच एम टी जितेन्द्र कुमार साहू (सं. 14606509डब्ल्यू अब जेसी-760282ए), 25 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी शम्भू दयाल सैनी (सं. 14612474एफ अब जेसी-760340वाई), 14 दिसम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (रेडियो) के रैंक में

एच एम टी सुखबीर सिंह (सं. 14579081एच अब जेसी-760344पी), 20 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोरर के रैंक में

हवलदार संत राम सिंह (सं. 14550365के अब जेसी-760219एल), 20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार मेसराम एस एस (सं. 14546180एल अब जेसी-760184ए), 29 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार दिनेश कुमार शर्मा (सं. 14547137डब्ल्यू अब जेसी-760382एक्स), 17 दिसम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार बिनोद बिहारी (सं. 14550583एच अब जेसी-760368वाई), 18 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार राम राज मौर्या (सं. 14550650एच अब जेसी-760370डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

हवलदार हुकम राम मन्डा (सं. 14558069एन अब जेसी-760307एफ), 17 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार किशोर चन्द्र प्रधान (सं. 14558058एफ अब जेसी-760302एच), 21 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार गवाली गजन सामराव (सं. 14559719एच अब जेसी-760304एन), 14 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार प्रमोद सिंह (सं. 14547606एन अब जेसी-760378एच), 15 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 14557520एच अब जेसी-760379एल), 14 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

हवलदार महेश प्रसाद (सं. 14538577एच अब जेसी-760312एम), 19 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार गुलराज सिंह (सं. 14543170डब्ल्यू अब जेसी-760313पी), 17 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफ वी) के रैंक में

हवलदार सरोश कुमार पान्डे (सं. 14537064एफ अब जेसी-760295एक्स), 04 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एम वी) के रैंक में

हवलदार बी एन राव (सं. 14540516के अब जेसी-760297एच), 25 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार सर्वेश्वर तिवारी (सं. 14540390पी अब जेसी-760298एल), 18 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार शिवनाथ सिंह (सं. 14540241एफ अब जेसी-760300एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार प्रधान (सं. 14542814वाई अब जेसी-760119ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार प्रेम नारायण त्यागी (सं. 14542624एम अब जेसी-760114एफ), 10 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार राधाकृष्ण पिल्लई आर (सं. 14542422एल अब जेसी-760113वाई), 25 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार सुभाष सिंह भान (सं. 14557993एफ अब जेसी-760050एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार सुरेन्द्र पाल सिंह (सं. 14558535एक्स अब जेसी-760145एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एन रवि चन्द्रन (सं. 14558029एम अब जेसी-760146के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार सी गणेशन (सं. 14558030एफ अब जेसी-760147एम), 01 सितम्बर 2005

हवलदार जादुमनी लेंका (सं. 14558042डब्ल्यू अब जेसी-760148पी), 01 सितम्बर 2005

हवलदार देबेन्द्र नाथ खुण्टियाँ (सं. 14558046एम अब जेसी-760150एम), 01 सितम्बर 2005

हवलदार मुकुन्दा भारती (सं. 14558055एन अब जेसी-760151पी), 01 सितम्बर 2005

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार एस के दास (सं. 14544024एच अब जेसी-760141एल), 05 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार राम आश्रय (सं. 14544025एल अब जेसी-760142एन), 06 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 14544030डब्ल्यू अब जेसी-760143डब्ल्यू), 06 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार सुरेन्द्र सिंह फरत्याल (सं.14544031वाई अब जेसी-760144वाई), 23 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार (वेल्डर) के रैंक में

हवलदार मोहम्मद अतुल्लाह (सं. 14545494ए अब जेसी-760092एन), 06 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार (रिकवरी मेक) के रैंक में

हवलदार राम सिंह (सं.14553787ए अब जेसी-760087एच), 30 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार व्ही एम (एम व्ही) के रैंक में

हवलदार भक्ता बहादुर कर्की (सं.14539267के अब जेसी-760105ए), 02 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार अवधेश कुमार (सं.14539448पी अब जेसी-760103पी), 09 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार सी अजय सिंह नरायण सिंह (सं.14539260ए अब जेसी-760104एक्स), 1 अगस्त 2005

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (जी सी ई) के रैंक में

हवलदार छावील कुमार (सं.14558141वाई अब जेसी-760101के), 30 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वेहिकल के रैंक में

एच एम टी बिनोद कुमार सिंह (सं.14571343वाई अब जेसी-759993एन), 01 जुलाई 2005/01 जून 2005*

एच एम टी कृष्णा कुमार (सं.14574463एच अब जेसी-759995वाई), 01 जुलाई 2005/01 जून 2005*

एच एम टी बच्चु सिंह (सं.14566804एन अब जेसी-759992एल), 01 जुलाई 2005/01 जून 2005*

एच एम टी एस पी सिंह (सं.14611184एक्स अब जेसी-760015वाई), 01 अगस्त 2005

एच एम टी अनन्ता कुमार मोहन्ता (सं.14580527वाई अब जेसी-760059डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005/01 जून 2005*

एच एम टी सत्यावान सिंह (सं.14572342एच अब जेसी-759994डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005/01 जून 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में

एच एम टी बिरादर बसगोंडा भिमगोंडा (सं.14595187वाई अब जेसी-759991एच), 01 जुलाई 2005

एच एम टी ओंकार सिंह (सं.14593290एल अब जेसी-759981वाई), 01 जुलाई 2005

एच एम टी राम पाल (सं.14595784एन अब जेसी-759986एक्स), 01 जुलाई 2005

एच एम टी सुबध्यान सिंह रावत (सं.14595501एफ अब जेसी-759988एच), 01 जुलाई 2005

एच एम टी दिलबाग सिंह (सं.14595870वाई अब जेसी-759989एल), 01 जुलाई 2005

एच एम टी बाबु लाल बिसनोई (सं.14593641पी अब जेसी-759980डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

एच एम टी कौशल राम बिसनोई (सं.14595158के अब जेसी-759990ए), 01 जुलाई 2005

एच एम टी हरिन्द्र प्रसाद मिश्रा (सं.14593308डब्ल्यू अब जेसी-759982एफ), 01 जुलाई 2005

एच एम टी अवधेश नरायण सक्सेना (सं.14592847ए अब जेसी-760058एन), 16 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी सोनार सुनील अशोक (सं.14595730एम अब जेसी-759984एम), 01 जुलाई 2005

एच एम टी दिनेश सिंह राणा (सं.14595780एक्स अब जेसी-759985पी), 01 जुलाई 2005

एच एम टी सुरेश बाबु एम जी (सं.14592091एल अब जेसी-759979एफ), 13 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

एच एम टी सुरेश कुमार (सं.14595787एफ अब जेसी-759987ए), 01 जुलाई 2005

एच एम टी बहादुर प्रसाद वर्मा (सं.14598240के अब जेसी-760022पी), 01 अगस्त 2005

एच एम टी गेना राम (सं.14597165वाई अब जेसी-760020के), 01 अगस्त 2005

एच एम टी वर्दा विश्वानन्धा राव (सं.14598984पी अब जेसी-760024ए), 01 अगस्त 2005

एच एम टी नरेन्द्र सिंह (सं.14601239एच अब जेसी-760038ए), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी मन्दु घोश (सं.14601642पी अब जेसी-760040एक्स), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी मदन पाल सिंह (सं.14607142एन अब जेसी-760080वाई), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी एम एस कुमार (सं.14599938एम अब जेसी-760035एम), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी जी सी भौवमिक (सं.14600451एन अब जेसी-760034के), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी एन के सिंह (सं.14602168वाई अब जेसी-760043एल), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी राजेन्द्रन एस (सं.14603340एफ अब जेसी-760064एफ), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी रमेश चन्द्र गौडा (सं.14600786एल अब जेसी-760037एक्स), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी वाघमारे प्रमोद सोपन राव (सं.14601713एल अब जेसी-760041ए), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी भागिरथ राम (सं.14603456एक्स अब जेसी-760065के), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी एम सब्रामणियन (सं.14606421एम अब जेसी-760078एफ), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी अशोक कुमार (सं.14603507ए अब जेसी-760066एम), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी पुतन बहादुर सिंह (सं.14605199के अब जेसी-760070पी), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी आर बाबु (सं.14602348एफ अब जेसी-760060एल), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी कथिरावन आर (सं.14603400एल अब जेसी-760063वाई), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी वीरेन्द्र प्रताप सिंह (सं.14603822डब्ल्यू अब जेसी-760067पी), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी रनवारे प्रदीप कुमार बी (सं.14602692एम अब जेसी-760062डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी पृथ्वी राज सिंह चौहान (सं.14605934पी अब जेसी-760074एल), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी अरुण कुमार चौधरी (सं.14605401एम अब जेसी-760069ए), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी श्री प्रसाद साह (सं.14602134एल अब जेसी-760042एच), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी माने भरत सखा राम (सं.14601344वाई अब जेसी-760039एच), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी संतोश कुमार (सं.14606360ए अब जेसी-760076डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी किशन लाल यादव (सं.14603670एच अब जेसी-759840के), 09 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी जगन नाथ सिंह (सं.14605200एन अब जेसी-760071एक्स), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

एच एम टी सयद साम्द सयद अहमद (सं.14607741एन अब जेसी-760031डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

एच एम टी सी सी राय (सं.14610189के अब जेसी-760046वाई), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी दिलबाग सिंह (सं.14609425एन अब जेसी-760045डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी ब्रजेश कुमार सिंह (सं.14587792एक्स अब जेसी-760084पी), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आर ओ के रैंक में

एच एम टी कर्मवीर सिंह यादव (सं.14604535वाई अब जेसी-760029के), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी सेख अब्बदुल रहमान (सं.14606320वाई अब जेसी-760130वाई), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी इंदवे विष्णु गंगाराम (सं.14604124ए अब जेसी-760048के), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी सुरेन्द्र सिंह (सं.14613153डब्ल्यू अब जेसी-760131एफ), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी राम बिलास पाल (सं.14613611एफ अब जेसी-760132के), 01 सितम्बर 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

एच एम टी राजेश मोहन (सं. 14585528एल अब जेसी-759896डब्ल्यू), 11 मई 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी बलजीत सिंह (सं. 14596960एम अब जेसी-759901डब्ल्यू), 24 मई 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी राम किशोर (सं. 14595552पी अब जेसी-759899के), 18 मई 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी श्री राम सहा (सं. 14596648के अब जेसी-759900एन), 16 मई 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी वल्लुमुरगन जे (सं. 14604370एल अब जेसी-759969एक्स), 01 जून 2005

एच एम टी जी जयशंकर (सं. 14588846ए अब जेसी-759897वाई), 18 मई 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी बालाजी व्ही के (सं. 14600780के अब जेसी-759968पी), 01 जून 2005

एच एम टी राजेश चन्द्र राउत (सं. 14600581डब्ल्यू अब जेसी-759967एम), 01 जून 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (ए व्ही एफ ए एफ) के रैंक में

एच एम टी रविन्द्र कुमार शर्मा (सं. 14601765एफ अब जेसी-759872एम), 11 मई 2005/01 मार्च 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (आर ओ) के रैंक में

एच एम टी धरमवीर सिंह (सं. 14560787एच अब जेसी-759813ए), 01 मई 2005

एच एम टी प्रेम चन्द (सं. 14579308एल अब जेसी-759972एक्स), 01 जून 2005

एच एम टी राजेश कुमार शर्मा (सं. 14604534डब्ल्यू अब जेसी-759811पी), 01 मई 2005

एच एम टी उदय नाथ लेन्का (सं. 14586800वाई अब जेसी-759974एच), 01 जून 2005

एच एम टी बिमल कुमार (सं. 14590422एच अब जेसी-759976एन),
01 जून 2005

एच एम टी गुण्ड अर्जुन भागवत (सं. 14604281एम अब जेसी-759809
एक्स), 01 मई 2005

एच एम टी जूसी देश महान्ता (सं. 14588535एम अब जेसी-759975
एल), 01 जून 2005

एच एम टी अस्वनी कुमार होता (सं. 14592912पी अब जेसी-
759977डब्ल्यू), 07 जून 2005/01 जून 2005×

एच एम टी सुनिल कुमार एस (सं. 14593969डब्ल्यू अब जेसी-
759978वाई), 17 जून 2005/01 जून 2005×

एच एम टी टी वैकटा गोपाल कृष्णा (सं. 14592117पी अब जेसी-
759805एफ), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक “बी” वेहिकल के रैंक में

एच एम टी मवारी रवि कुमार (सं. 14604660एच अब जेसी-759828
एफ), 03 मई 2005/27 फरवरी 2005×

एच एम टी जयवीर सिंह (सं. 14595734एच अब जेसी-759860
एक्स), 07 मई 2005

एच एम टी राज कुमार (सं. 14612786एन अब जेसी-759834डब्ल्यू),
11 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005×

एच एम टी नरेन्द्र सिंह यादव (सं. 14599247ए अब जेसी-759881
एल), 02 मई 2005/01 अप्रैल 2005×

एच एम टी कप्तान सिंह यादव (सं. 14612664एन अब जेसी-
759832एल), 24 मई 2005/01 अप्रैल 2005×

एच एम टी सुरेश शोनीय (सं. 14611954वाई अब जेसी-759941
एक्स), 01 जून 2005

एच एम टी सोलन्की नागा भाई नथू भाई (सं. 14591379वाई अब
जेसी-759954पी), 01 जून 2005

एच एम टी जयनेन्द्र कुमार (सं. 14612465ए अब जेसी-759961एल),
01 जून 2005

एच एम टी सन्तोष कुमार दास (सं. 14608815के अब
जेसी-759937पी), 01 जून 2005

एच एम टी राजबिर सिंह (सं. 14609172के अब जेसी-759957एच),
01 जून 2005

एच एम टी पुर्ण चन्द्र कोरोवा (सं. 14568169एम अब जेसी-
759944एम), 01 जून 2005

एच एम टी राजन टी सी (सं. 14593304ए अब जेसी-759955एक्स),
01 जून 2005

एच एम टी राजाराम यादव (सं. 14570595वाई अब जेसी-759945
एन), 01 जून 2005

एच एम टी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (सं. 14591045के अब जेसी-
759964वाई), 01 जून 2005

एच एम टी सुरेश कुमार टी एन (सं. 14608553वाई अब जेसी-
759713पी), 04 फरवरी 2005/14 नवम्बर 2005×

एच एम टी राम निवास गुरजर (सं. 14592654ए अब जेसी-759883
वाई), 02 मई 2005/01 मई 2005×

एच एम टी बी जे रमेश कुमार (सं. 14579700एल अब जेसी-759948
एफ), 04 जून 2005/01 जून 2005×

एच एम टी अरूण कुमार (सं. 14610247एच अब जेसी-759938
एक्स), 02 जून 2005/01 जून 2005×

एच एम टी राज कुमार टी पी (सं. 14585998डब्ल्यू अब जेसी-
759951एफ), 07 जून 2005

एच एम टी रश्मि रन्जन महापात्रा (सं. 14589561ए अब जेसी-
759963डब्ल्यू), 01 जून 2005

एच एम टी ओम प्रकाश (सं. 14563049के अब जेसी-759943एच),
01 जून 2005

एच एम टी रावल बतूक राई मान सिंह (सं. 14591303वाई अब
जेसी-759965एफ), 06 जून 2005/01 जून 2005×

एच एम टी नल्ला लोका नाधू (सं. 14588966वाई अब जेसी-
759962एन), 01 जून 2005

एच एम टी वेद व्यास (सं. 14586941एन अब जेसी-759952के),
01 जून 2005

एच एम टी सुमन कुमार (सं. 14594308एच अब जेसी-759863एल),
03 मई 2005/01 मई 2005×

एच एम टी जय नारायण मिश्रा (सं. 14572052एल अब जेसी-
759946डब्ल्यू), 01 जून 2005

एच एम टी शिव दर्शन त्रिपाठी (सं. 14608603वाई अब जेसी-
759956ए), 01 जून 2005

एच एम टी सुभाष चन्द्र मिश्रा (सं. 14582449एल अब जेसी-
759949के), 01 जून 2005

एच एम टी एम डी रफिकूल इस्लाम (सं. 14610512एन अब जेसी-
759959एन), 01 जून 2005

एच एम टी तपन कुमार अदाक (सं. 14584625डब्ल्यू अब जेसी-
759950वाई), 01 जून 2005

एच एम टी विनोद कुमार पाण्डे (सं. 14609730ए अब जेसी-
759958एल), 01 जून 2005

एच एम टी सुरेन्द्र प्रकाश शर्मा (सं. 14613058के अब जेसी-
759942ए), 11 जून 2005/01 जून 2005×

एच एम टी हिम्मत सिंह राठोर (सं. 14606754वाई अब जेसी-
759935के), 01 जून 2005

एच एम टी चवान सुरेश सदाशिव (सं. 14610268वाई अब जेसी-
759932डब्ल्यू), 30 मई 2005/01 अप्रैल 2005×

एच एम टी निजालिनाप्पा हूक्केरी (सं. 14593886एल अब जेसी-759983के), 01 जुलाई 2005

एच एम टी आर रवि कुमार (सं. 14607158एम अब जेसी-759936 एम), 01 जून 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (ई एल एफ) के रैंक में

एच एम टी सुनिल जी (सं. 14573589डब्ल्यू अब जेसी-759877एल), 30 मई 2005/01 मार्च 2005×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (इन्स्ट्रुमेन्ट) के रैंक में

एच एम टी नारायण सिंह धामी (सं. 14605031एक्स अब जेसी-759970एम), 13 जून 2005/ 01 जून 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार (मशीनिस्ट) के रैंक में

हवलदार डानियल तिरके (सं. 14542549एन अब जेसी-759927 एल), 27 जून 2005/01 जून 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार अपलोस्टर के रैंक में

हवलदार राजेन्द्रन वी (सं. 14557304पी अब जेसी-759923पी), 23 जून 2005/01 जून 2005×

हवलदार सुरजित सिंह (सं. 14562421के अब जेसी-759924एक्स), 09 जून 2005/01 जून 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

हवलदार भुवाल राम (सं. 14553786एक्स अब जेसी-759925ए), 04 जून 2005/01 जून 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

हवलदार रमेश बाबू (सं. 14547952के अब जेसी-759926एच), 01 जून 2005

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार अजित सिंह मलिक (सं. 14543989एन अब जेसी-759904 के), 16 जून 2005/01 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेन्ट के रैंक में

एच एम टी श्री कुमार जी (सं. 14595139वाई अब जेसी-759658के), 21 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004*

एच एम टी खलिद अनसारी (सं. 14609702एन अब जेसी-760267एल), 31 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

एच एम टी सी देवरजुलू चेट्टी (सं. 14610276एक्स अब जेसी-759657एफ), 17 जनवरी 2005/01 जून 2004*

एच एम टी अशीष कुमार ठाकुर (सं. 14568532एच अब जेसी-759661के), 18 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004*

एच एम टी सुरिन्दर कुमार (सं. 14594915एफ अब जेसी-759667एल), 07 फरवरी 2005/17 अक्टूबर 2004*

एच एम टी अलीमुद्दीन (सं. 14596408एम अब जेसी-759670एल), 08 फरवरी 2005/17 अक्टूबर 2004*

एच एम टी राम दिया (सं. 14608784पी अब जेसी-759675के), 11 फरवरी 2005/17 अक्टूबर 2004*

एच एम टी श्याम कुमार पी के (सं. 14601167के अब जेसी-759617 ए), 17 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी एम सुब्रमनी (सं. 14605404ए अब जेसी-759620ए), 17 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी लखी राम (सं. 14605441एन अब जेसी-759622एल), 12 फरवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी जी वेंकटेश्वर (सं. 14612565एल अब जेसी-759627के), 17 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी ओम चन्द (सं. 14609988एन अब जेसी-759711के), 02 फरवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

एच एम टी राम बक्स (सं. 14597495एक्स अब जेसी-759776एक्स), 03 मार्च 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी राम मोहन (सं. 14609349एम अब जेसी-759643एफ), 20 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004*

एच एम टी महेन्द्र कुमार राउट (सं. 14582087पी अब जेसी-759646पी), 03 फरवरी 2005/01 दिसम्बर 2004*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी व्हीकल के रैंक में

एच एम टी पदमनाभा प्रधान (सं. 14608103एफ अब जेसी-759612 एफ), 10 फरवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी टेन्दू रामा राव (सं. 14608446एक्स अब जेसी-759629पी), 17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004*

एच एम टी नरेन्द्र सिंह राजपूत (सं. 14609283एफ अब जेसी-759631एम), 07 फरवरी 2005/01 दिसम्बर 2004*

एच एम टी राकेश कुमार सिंह (सं. 14609303के अब जेसी-759632 पी), 19 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004*

एच एम टी अरविन्दन वी (सं. 14611450एल अब जेसी-759733एच), 01 मार्च 2005

एच एम टी शक्तिथ टी के (सं. 14608650डब्ल्यू अब जेसी-759714एक्स), 04 फरवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी विजय सिंह (सं. 14609923ए अब जेसी-759716एच), 04 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

एच एम टी गिरजा शंकर शर्मा (सं. 14610606एल अब जेसी-759719डब्ल्यू), 03 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

एच एम टी जी राधा कृष्णन नायर (सं. 14610821डब्ल्यू अब जेसी-759726एम), 01 फरवरी 2005

एच एम टी नरेश कुमार (सं. 14611026एच अब जेसी-759730पी),
01 मार्च 2005

एच एम टी जयन्त राय (सं. 14589508पी अब जेसी-760236एल),
02 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी राम पाल (सं. 14609491डब्ल्यू अब जेसी-760256
वाई), 22 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी आर सत्यवीर राम बहादुर (सं. 14607601एफ अब जेसी-
760238डब्ल्यू), 18 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी एस वी स्वामी राव (सं. 14609004एल अब जेसी-
760259एम), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी राम ब्रिक्स (सं. 14608835एक्स अब जेसी-760254
एन), 26 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी देव दत्त (सं. 14608162एन अब जेसी-760241डब्ल्यू),
08 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी अशोक कुमार दुबे (सं. 14608828एफ अब जेसी-760253
एल), 31 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी ओ मनीकन्दन (सं. 14609557एफ अब जेसी-760258
के), 21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

एच एम टी पली अदीनारायन (सं. 14577248एच अब जेसी-759721
एन), 12 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

एच एम टी के पी शन्याशी (सं. 14573240वाई अब जेसी-760272
डब्ल्यू), 20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक एविएसन के रैंक में

एच एम टी चन्दन कुमार सामन्त (सं. 14558130एम अब जेसी-
759724एफ), 03 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए व्हीकल के रैंक में

एच एम टी जयदेव प्रसाद सिंह (सं. 14607377ए अब जेसी-760246
पी), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आरमोर के रैंक में

एच एम टी चन्द्र शेकरन (सं. 14612218एम अब जेसी-760288एफ),
21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी अमर सिंह (सं. 14613804एफ अब जेसी-760279ए),
22 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी गुलाब चन्द (सं. 14613468ए अब जेसी-760275के),
21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी भगीरथ नन्दी (सं. 14613634एच अब जेसी-760277पी),
20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी कृष्ण लाल करेशेया (सं. 14613652एल अब जेसी-
760276एम), 11 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक "बी" व्हीकल के रैंक में

एच एम टी सनिवरपूकीर्थि प्रसाद (सं. 14607991पी अब जेसी-
759614एम), 17 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी सन्तोष कुमार श्रीवास्तव (सं. 14599248एच अब जेसी-
759844ए), 07 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी दलेर सिंह (सं. 145972433एफ अब जेसी-
759842पी), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी भुपेन्द्र सिंह राना (सं. 14607495एन अब जेसी-
759845एच), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी एम सेलवारज (सं. 14613043एफ अब जेसी-
759839पी), 05 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी कुलविर सिंह (सं. 14600007एक्स अब जेसी-
759843एक्स), 06 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी के प्रदिप कुमार रेड्डी (सं. 14610721एल अब जेसी-
759827ए), 05 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

एच एम टी हरपाल यादव (सं. 14612655एम अब जेसी-
759831एच), 05 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी अरूमुगम एम (सं. 14604709एन अब जेसी-
759826एक्स), 04 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

एच एम टी राजा ए (सं. 14609769एम अब जेसी-759824
एम), 21 मार्च 2005/01 जनवरी 2005*

एच एम टी सुरेश बाबू कारोथन (सं. 14610895एल अब जेसी-
759853एफ), 05 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी लखनेश्वर सिंह (सं. 14609664एच अब जेसी-
759823एक्स), 05 अक्टूबर 2005/01 जनवरी 2005*

एच एम टी बिरबार पात्रा (सं. 14607672एच अब जेसी-759846
एल), 09 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी आर रमेश (सं. 14610840एफ अब जेसी-
759851डब्ल्यू), 06 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी वी ऋद्धाइया (सं. 14612593एक्स अब जेसी-759830
ए), 06 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

एच एम टी हरिष चन्द पाण्डे (सं. 14613045एम अब जेसी-759838
एम), 08 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी एन जोतिलाल मुर्ति (सं. 14612879एम अब जेसी-
759835वाई), 05 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी मुरुगन ए (सं. 14612058एक्स अब जेसी-
759854के), 05 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

एच एम टी जगदम्बा प्रसाद (सं. 14610756एफ अब जेसी-
759819एफ), 06 अप्रैल 2005/06 मई 2004*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

एच एम टी बी सत्यनारायण (सं. 14588452एफ अब जेसी-759802एन), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी राजेन्द्र सिंह (सं. 14594320के अब जेसी-759807एम), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी राजकुमार यादव (सं. 14581876पी अब जेसी-759801एल), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी दुल्लिचन्द खुडानिया (सं. 14579258एल अब जेसी-759800एच), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी इन्दीराज सिंह (सं. 14571741ए अब जेसी-759797एन), 15 मार्च 2005/03 अक्टूबर 2004×

एच एम टी गजरे सन्जय चन्द्रा शा (सं. 14590842एच अब जेसी-759804वाई), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

एच एम टी सुकदेब मण्डल (सं. 14612453एल अब जेसी-759712एम), 01 अप्रैल 2005

एच एम टी भानवाडे विनय रमेश (सं. 14598232एल अब जेसी-759655डब्ल्यू), 25 फरवरी 2005/01 जून 2004×

एच एम टी पी हनुमन्त महादेव (सं. 14605754एम अब जेसी-759718वाई), 02 अप्रैल 2005/14 नवम्बर 2004×

एच एम टी ईनोसन्ट होरो (सं. 14597059ए अब जेसी-759816ए), 31 मार्च 2005/14 नवम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक जी सी ई के रैंक में

एच एम टी हरदयाल सिंह (सं. 14562260एम अब जेसी-759775पी), 28 फरवरी 2005/23 सितम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार अपलोस्टर के रैंक में

हवलदार सुखपाल सिंह (सं. 14560888डब्ल्यू अब जेसी-759509डब्ल्यू), 31 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

हवलदार सन्त राज राम (सं. 14555539एच अब जेसी-759491एल), 10 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (आर ओ) के रैंक में

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 14544429एन अब जेसी-759760एम), 12 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005×

हवलदार लक्ष्मणनायडू पेडबा (सं. 14550093पी अब जेसी-759779एल), 05 मार्च 2005/01 फरवरी 2005×

हवलदार शाम नारायण रे (सं. 14551074डब्ल्यू अब जेसी-759782एल), 05 मार्च 2005/01 मार्च 2005×

हवलदार राम चन्द्र गुप्ता (सं. 14551083एक्स अब जेसी-759786एफ), 01 मई 2005

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (रडार) के रैंक में

हवलदार शाम बिहारी सिंह (सं. 14539149डब्ल्यू अब जेसी-759783एन), 01 अप्रैल 2005

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 14538414पी अब जेसी-759778एच), 08 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (जी सी ई) के रैंक में

हवलदार रमेश चन्दर (सं. 14557657पी अब जेसी-759785वाई), 01 मई 2005

हवलदार से नायब सूबेदार व्ही एम (एम व्ही) के रैंक में

हवलदार समर नाथ सिंह (सं. 14538727एन अब जेसी-759777ए), 03 मार्च 2005/01 फरवरी 2005×

हवलदार कृष्ण व्ही (सं. 14538759डब्ल्यू अब जेसी-759784डब्ल्यू), 01 मई 2005

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राफ्टमैन के रैंक में

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 14554066एच अब जेसी-759789पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार पुजारी संजय भिमा (सं. 14559601एफ अब जेसी-759791एम), 01 मई 2005

हवलदार से नायब सूबेदार फीटर (ए एफ व्ही/ए डी) के रैंक में

हवलदार आनन्द बल्लब तिवारी (सं. 14561859एन अब जेसी-759579पी), 27 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार महेश चन्दर शर्मा (सं. 14557588के अब जेसी-759891एक्स), 01 मई 2005

हवलदार मोहनन सी एन (सं. 14557982पी अब जेसी-759892ए), 04 मई 2005/01 मई 2005×

हवलदार अजय कुमार मिश्रा (सं. 14555318डब्ल्यू अब जेसी-759895एन), 06 मई 2005/01 मई 2005×

हवलदार योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता (सं. 14557008 अब जेसी-759889ए), 01 मई 2005

हवलदार राज कुमार (सं. 14557032ए अब जेसी-759790पी), 01 मई 2005

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 14557006वाई अब जेसी-759788एक्स), 02 मई 2005/01 मई 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

हवलदार सपन कुमार भौमिक (सं. 14536018ए अब जेसी-759886एम), 09 मई 2005/03 अप्रैल 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

हवलदार राम निवास (सं. 14553647एन अब जेसी-759786वाई), 01 मई 2005/01 फरवरी 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में

हवलदार देवी सिंह (सं. 14541765पी अब जेसी-759790के), 01 अप्रैल 2005

हवलदार सी एच अर्जुन सिन्हा (सं. 14542223एक्स अब जेसी-759793एक्स), 01 मई 2005

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मिथ रैंक में

हवलदार पावल जमेश कुल्लू (सं. 14534345एम अब जेसी-759787के), 10 अप्रैल 2005/01 01 फरवरी 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार पेन्टर और डेकोरेटर के रैंक में

हवलदार राम नाथ यादव (सं. 14541278पी अब जेसी-759794ए), 01 मई 2005

×(पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है)।

एन. के. कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 442, दिनांक 11 अगस्त, 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कप्तान से मेजर

आई सी-56320 विशाल मुन्धर, ए सी

आई सी-56321 कृष्णनदास टी आर, इन्फैन्ट्री

आई सी-56322 मंजीत कटोच, इन्फैन्ट्री

आई सी-56323 संजय भाटिया, इन्जीनियर्स

आई सी-56324 धनराज सिंह चीमा, आर्टी

आई सी-56325 राजेन्द्र खत्री, इन्जीनियर्स

आई सी-56326 विकास सधोत्रा, ए ए डी

आई सी-56327 संग्राम सिंह राठौर, ए एस सी

आई सी-56328 चरण प्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री

आई सी-56330 विक्रमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री

आई सी-56331 सरताज सिंह सिद्धू, आर्टी

आई सी-56332 अरूण कुमार सिंह, मैक इन्फैन्ट्री

आई सी-56333 अजय कुमार, इन्फैन्ट्री

आई सी-56334 राजागोपाल चक्रावर्ती, इन्फैन्ट्री

आई सी-56335 राहुल सिंह, आर्टी

आई सी-56336 सौरभ रामाचन्द्रन, ए ए डी

आई सी-56337 प्रवीन जैन, ई एम ई

आई सी-56338 मृत्युंजय उपाध्याय, इन्फैन्ट्री

आई सी-56339 आशीष मोहन अग्रवाल, ए सी

आई सी-56340 दिग्विजय सिंह हाडा, आर्टी

आई सी-56341 अनूप थापा, इन्फैन्ट्री

आई सी-56342 रंजीत कुमार, ए ओ सी

आई सी-56343 पडाला चन्द्र शेखर, इन्फैन्ट्री

आई सी-56344 हरीश सेमवाल, इन्ट

आई सी-56345 हिमांशु रावत, इन्फैन्ट्री

आई सी-56346 विनय चन्द्र, सिग्नल्स

आई सी-56347 रितेश शर्मा, इन्फैन्ट्री

आई सी-56348 दीपक कटारिया, इन्फैन्ट्री

आई सी-56350 बल बहादुर पुन, इन्फैन्ट्री

आई सी-56351 मलाय सौरव चौधरी, मैक इन्फैन्ट्री

आई सी-56353 राजेश ग्रोवर, इन्फैन्ट्री

आई सी-56354 अजय सिंह यादव, ए ए डी

आई सी-56355 मनिन्दर दीप सिंह, ए सी

आई सी-56357 विकास वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री

आई सी-56358 विनीत कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री

आई सी-56359 निर्मित भटनागर, ए एस सी

आई सी-56360 दिलिप कुमार प्रधान, ए ए डी

आई सी-56361 राज कुमार पान्डा, आर्टी

आई सी-56362 रंजित मेथ्यू, इन्फैन्ट्री

आई सी-56363 समीर रैना, इन्फैन्ट्री

आई सी-56364 राजीव भरवान, इन्फैन्ट्री

आई सी-56365 विशेष कुमार शर्मा, ई एम ई

आई सी-56366 पोनाम रोमेश सिंह, इन्फैन्ट्री

आई सी-56368 चन्द्र शेखर, इन्फैन्ट्री

आई सी-56369 मितेश खजुरिया, इन्फैन्ट्री

आई सी-56370 सुनिल कुमार सिंह, ए सी

आई सी-56371 संजय खान, आर्टी

आई सी-56372 राधाकृष्णन राजन, इन्फैन्ट्री

आई सी-56373 प्रशांत मिश्रा, इन्फैन्ट्री

आई सी-56374 राजपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

आई सी-56375 उमेश्वर सिंह, ए ए डी

आई सी-56376 केलकर पुष्पक सुधीर, आर्टी

आई सी-56377 गुरमिन्दर पाल सिंह, ई एम ई	आई सी-56415 ध्रुव सिंह सुपाहिया, ई एम ई
आई सी-56378 अकोईजम जयन्त, आर्टी	आई सी-56416 संजय जैन, ए सी
आई सी-56379 संजय पाटिल, आर्टी	आई सी-56417 सम्राट सेन गुप्ता, इन्फैन्ट्री
आई सी-56380 वेंकटेश प्रसाद, आर्टी	आई सी-56418 आशुतोष सिन्हा, ए एस सी
आई सी-56381 भुयान बुलबुल, इन्फैन्ट्री	आई सी-56419 प्रवीन कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-56382 आशीष पवार, ए सी	आई सी-56420 रवि पटनेय, इन्जीनियर्स
आई सी-56383 वरेन्द्र पॉल सिंह, ए सी	आई सी-56421 के सानथ, सिगनल्स
आई सी-56384 विनोद पी के, सिगनल्स	आई सी-56422 दीपक कुमार जोशी, ए ओ सी
आई सी-56385 हरदीप सिंह ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री	आई सी-56424 सोरव पाल, इन्फैन्ट्री
आई सी-56386 उमराव सिंह तंवर, आर्टी	आई सी-56426 दिग्विजय सिंह विष्ट, आर्टी
आई सी-56387 शैलेश शर्मा, इन्जीनियर्स	आई सी-56428 मोहिन्दर कुमार शान, इन्फैन्ट्री
आई सी-56388 मृत्युंजय कुमार उपाध्याय, मैक इन्फैन्ट्री	आई सी-56431 कंवलजीत सिंह बाजवा, ईन्ट
आई सी-56389 पुष्पेन्दर सिंह रानावत, इन्फैन्ट्री	आई सी-56432 अरविन्द सैनी, इन्फैन्ट्री
आई सी-56390 प्रभात कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री	आई सी-56436 महिन्दर कुमार, आर्टी
आई सी-56391 सुरजीत लाकरा, ए एस सी	आई सी-56437 नीलोत्तपाल त्यागी, इन्फैन्ट्री
आई सी-56392 संजय कुमार, इन्फैन्ट्री	आई सी-56438 राजेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-56393 प्रवीन कुमार शर्मा, ए ए डी	आई सी-56439 पुनीत शर्मा, ए सी
आई सी-56394 संजीव बाजपेई, इन्फैन्ट्री	आई सी-56440 पुष्पेन्द्र गोहिल, इन्फैन्ट्री
आई सी-56395 शान्तनु डे, इन्फैन्ट्री	आई सी-56441 ईमोन मुखर्जी, इन्फैन्ट्री
आई सी-56397 वरूण भारतीय, आर्टी	आई सी-56442 विशाल चौधरी, इन्फैन्ट्री
आई सी-56398 गौरव सिंह ठाकुर, आर्टी	आई सी-56443 नितिन मुदगल, इन्फैन्ट्री
आई सी-56399 दीपक कुमार पाण्डे, ई एम ई	आई सी-56444 विक्रम राजे भोंसले, मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-56400 बिरिन्दर सिंह कुलार, ए सी	आई सी-56445 पंकज शुक्ला, आर्टी
आई सी-56402 सुल्तान सिंह, इन्जीनियर्स	आई सी-56446 हरि के नायर, आर्टी
आई सी-56404 अभिषेक कौशिक, मैक इन्फैन्ट्री	आई सी-56447 आनन्द कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-56405 अखिल मेन्डे, इन्फैन्ट्री	आई सी-56448 देवेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-56406 डिसूजा जेवियर डिओगो, आर्टी	आई सी-56450 रवि कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-56407 प्रवीन सिंह विष्ट, इन्जीनियर्स	आई सी-56452 कलिंग्टन रूबैन, इन्फैन्ट्री
आई सी-56408 भारतिन्दर सिंह मान, ईन्ट	आई सी-56454 बलजीत सिंह, ए एस सी
आई सी-56409 प्रमोद कुमार चौधरी, इन्फैन्ट्री	आई सी-56456 रूपिन्दर सिंह, आर्टी
आई सी-56410 नवदीप गोस्वामी, इन्फैन्ट्री	आई सी-56457 दर्शन सचदेवा, इन्फैन्ट्री
आई सी-56411 सी सबरिनाथ, आर्टी	आई सी-56458 निरेन सुधीर देशपाण्डे, आर्टी
आई सी-56412 नरिन्दर पाल सिंह, ए ए डी	आई सी-56460 गौतम झा, ए सी
आई सी-56413 आकाश सिंह, इन्फैन्ट्री	आई सी-56461 सुमित शाह, इन्फैन्ट्री

आई सी-56462 अभिमन्यु एस राठौर, इन्फैन्ट्री

आई सी-56464 विनित नारायण, इन्फैन्ट्री

आई सी-56465 देबाशीश दत्ता, सिग्नल्स

आई सी-56466 रचित रावत, इन्फैन्ट्री

आई सी-56467 प्रनव ओक्ता, ए सी

आई सी-56469 राकेश कुमार, ए ए डी

आई सी-56470 ईमोन सामन्ता, इन्फैन्ट्री

आई सी-56472 अमरेश सिंह खानगरोत, इन्फैन्ट्री

आई सी-56473 रजनी कांत, ए एस सी

आई सी-56475 गौरव कुमार मिश्रा, आर्टी

आई सी-56476 पी आनन्द थाप्पी, आर्टी

आई सी-56477 विनीत कुमार शर्मा, ए ओ सी

आई सी-56478 सूरज सुब्बा, इन्फैन्ट्री

आई सी-56481 अभिजित मुखर्जी, ए ए डी

आई सी-56482 आकाश खन्ना, ए सी

आई सी-56484 नीरज कुमार, सिग्नल्स

आई सी-56487 रोहित रसैले, आर्टी

आई सी-56490 आशीष कृष्णा, आर्टी

--04 मई 2006

शिव राम बैरवा

उप निदेशक

एम एस 8 सी

सं. 443, दिनांक 9 अगस्त, 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव श्री आर. सी. गुप्ता की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री आर. बी. बलोनी की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री योगेन्द्र मिश्रा की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव श्रीमती रूप रानी वर्मा की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

वी. सरस्वती

उप सचिव

सेना शाखा

नियमित सेना

स्थायी आयोग

शुद्धिपत्र

संख्या 444, दिनांक 11 अगस्त, 2006--भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 09 अप्रैल 2005 को प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अंतर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

वैयक्तिक संख्या आई सी-64299वाई, के सामने के नाम

के लिए--विकास

पढ़ें--विकास भारद्वाज

वैयक्तिक संख्या आई सी-64317डब्ल्यू, के सामने के नाम

के लिए--बोंडरे आशीष अनासो

पढ़ें--बोंडरे आशीष अनासाहेब

वैयक्तिक संख्या आई सी-64329एल, के सामने के नाम

के लिए--शिवा कुमार

पढ़ें--शिवा कुमार मुदालियर

वैयक्तिक संख्या आई सी-64341एम, के सामने के नाम

के लिए--सुनील कुमार उडीक

पढ़ें--सुनील कुमार उडेक

वैयक्तिक संख्या आई सी-64344ए, के सामने के नाम

के लिए--तिग्मांशु

पढ़ें--तिग्मांशु वर्मा

वैयक्तिक संख्या आई सी-64350एन, के सामने के नाम

के लिए--कौशलेन्द्र

पढ़ें--कौशलेन्द्र सक्सेना

वैयक्तिक संख्या आई सी-64368के, के सामने के नाम

के लिए--सरवणन

पढ़ें--सरवणन बी

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 09 अप्रैल 2005 को प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अंतर्गत उपशीर्षक अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) लेफ्टिनेन्ट के पद पर के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

वैयक्तिक संख्या एसएस-40503एन, के सामने के नाम

के लिए--विकास

पढ़ें--विकास भारद्वाज

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 09 अप्रैल 2005 को प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अंतर्गत उपशीर्षक अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) लेफ्टिनेन्ट के पद पर के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

वैयक्तिक संख्या एसएस-40698के, के सामने के नाम

के लिए--बोंडरे आशीष अनासो

पढ़ें--बोंडरे आशीष अनासाहेब

वैयक्तिक संख्या एसएस-40722पी, के सामने के नाम

के लिए--कौशलेन्द्र

पढ़ें--कौशलेन्द्र सक्सेना

वैयक्तिक संख्या एसएस-40747एफ, के सामने के नाम

के लिए--सरवणन

पढ़ें--सरवणन बी

वैयक्तिक संख्या एसएस-40781एफ, के सामने के नाम

के लिए--सुनील कुमार उडीक

पढ़ें--सुनील कुमार उडेक

वैयक्तिक संख्या एसएस-40784पी, के सामने के नाम

के लिए--तिग्मांशु

पढ़ें--तिग्मांशु वर्मा

वैयक्तिक संख्या एसएस-40810एल, के सामने के नाम

के लिए--शिवा कुमार

पढ़ें--शिवा कुमार मुदालियर

एस. के. शर्मा

ले. कर्नल

ए एम एस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th August 2006

No. 440, dated 9th August, 2006.—The President is pleased to appoint Shri K Seshaiiah, ICOAS (89), Deputy Secretary, Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 15.6.2006 (FN) upto 1.1.2009, or until further orders whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Munish Kumar, Assistant borne on the Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 19.06.2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

2. This supersedes this Ministry's Notification of even number dated 21.06.2006.

The President is pleased to appoint Shri Pawan Kumar, a regular Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Finance (Department of Revenue), as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 19.07.2006 (FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

The President is pleased to appoint Shri Rana Sen Gupta, a regular Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Finance (Department of Revenue), as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the Scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 19.07.2006 (FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

V. SARASWATHY
Deputy Secretary

(ARMY BRANCH)

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGR BRANCH

No. 441, dated 10th August 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

To be Sub Maj Tech

Sub Rajender Singh Dagar (JC-747591K), 01 Apr 2005
Sub Govind Singh Rawat (JC-747836P), 01 Apr 2005
Sub Girish Chandra Bhatt (JC-747478P), 01 Apr 2005
Sub Gajendra Prasad Sharma (JC-747770K), 01 Apr 2005
Sub Puran Chand (JC-747529X), 01 Mar 2005
Sub Mathai K J (JC-747814W), 01 Mar 2005
Sub Manoj Kumar Tripathy (JC-747583L), 01 Mar 2005
Sub Rajendra Singh Aswal (JC-748137W), 01 Apr 2005

Sub Anirudh Rai (JC-747518L), 23 Apr 2005/01 Jan 2005*

Sub Mool Chand Sharma (JC-747812L), 03 May 2005/01 May 2005*

Sub Salamat Khan Bhatia (JC-748192M), 01 May 2005

Sub B P Singh (JC-747636Y), 02 May 2005/01 May 2005*

Sub Paresch Chandra Biswas (JC-747774A), 01 May 2005

Sub R kashinathan (JC-747533A), 01 Apr 2005

Sub Om Prakash (JC-747479X), 02 May 2005/01 May 2005*

Sub Dalip Singh Rana (JC-747654F), 01 Apr 2005

Sub Raghu Raj Singh (JC-747650L), 01 Mar 2005

Sub Suresh Kumar (JC-747828W), 01 May 2005

Sub Ramesh Lal Saini (JC-747795W), 01 May 2005

To be Sub Maj Artzn (EC)

Sub Jagdish Chand (JC-750930K), 01 Apr 2005

To be Sub Maj SK Tech

Sub Vijaya Gopal (JC-748559F), 01 May 2005

To be Sub Maj Artzn (NE)

Sub Budh Kumar Das (JC-749096M), 01 Apr 2005

To be Sub Maj Clerk (GD)

Sub Hari Kishan Choudhary (JC-747038F), 01 Apr 2005

To be Sub Maj DW

Sub Jawahar Lal (JC-751283F), 01 May 2005

Sub Satbir Singh (JC-750678W), 01 Apr 2005

To be Sub Maj REC Mech

Sub K Subramaniam (JC-748771Y), 08 Apr 2005/01 Apr 2005*

To be Sub Maj Tech

Sub Satender Singh (JC-747859W), 25 Jul 2005/01 Jun 2005*

Sub Gopa Kumar P K (JC-748220N), 01 Sep 2005

Sub Bihari Lal (JC-748294A), 01 Nov 2005

Sub Pavithran Polappati (JC-748633X), 01 Nov 2005

To be Sub Maj Artzn (EC)

Sub Raghubir Singh (JC-751159A), 06 Oct 2005/01 Sep 2005*

To be Sub Maj Artzn (NE)

Sub Rajender Singh (JC-749641H), 01 Aug 2005/01 Jul 2005*

Sub Bhadreswar Choudhury (JC-750821X), 25 Oct 2005/01 Oct 2005*

To be Sub Maj REC Mech

Sub Shivji Singh (JC-749094Y), 01 Oct 2005

Sub Ramesh Chander Purohit (JC-749025A), 01 Nov 2005

To be Sub Tech

Nb Sub Ravindran M (JC-755772K), 09 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Phool Chandra (JC-756298N), 09 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Ranvir Singh Tanwar (JC-755934K), 12 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Dilip Chandra (JC-755932Y), 22 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Sughar Lal Pal (JC-755774P), 22 Nov 2005/01 Oct 2005

Nb Sub Ram Singh (JC-755765N), 10 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Kalane Namdeo Dnyandeo (JC-755773M), 21 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub S S K Rao Saheb (JC-755847W), 01 Nov 2005

Nb Sub O P Singh (JC-755785F), 22 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-755777H), 21 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Ranbir Singh (JC-755762A), 07 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Barmeshwer Singh (JC-755763H), 12 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Rabindra Kumar Behera (JC-755781L), 11 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Jai Singh (JC-755787M), 08 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Ravindra Kumar (JC-755767Y), 11 Nov 2005/01 Oct 2005

Nb Sub Sanant Kumar Pradhan (JC-755678A), 02 Nov 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Nem Singh (JC-756186N), 11 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Subhash Chand (JC-755898K), 08 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Bhola Jha (JC-755879Y), 23 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Rajendra Prasad Singh (JC-755862L), 22 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Venugopalan Nair G (JC-755875H), 11 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Bhakta Ranjan Mahanti (JC-755872P), 17 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Jakir Hossain Mondal (JC-755713X), 02 Nov 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub K A Mollaha (JC-755503X), 18 Oct 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Phool Badan Giri (JC-755843A), 07 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Suresh Singh Yadav (JC-755841P), 10 Nov 2005/01 Nov 2005

Nb Sub Surat Singh (JC-755850W), 10 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Jai Pal (JC-755849F), 11 Nov 2005/01 Nov 2005*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Uma Shankar Singh (JC-757055P), 22 Nov 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Murlidhar Singh (JC-757090X), 18 Mar 2005/01 Sep 2004*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Hari Narayan (JC-756023A), 07 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Gopal Upadhyay (JC-756172N), 08 Nov 2005/01 Nov 2005*

To be Sub Artzn EC (AVN)

Nb Sub Jaikaran Singh Khichar (JC-756202A), 03 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Chandar Pal Sangwan (JC-756333L), 08 Nov 2005/01 Oct 2005*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Mukut Chandra Medhi (JC-754111X), 07 Nov 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Komal Prasad Gohil (JC-754197F), 14 Nov 2005/01 Oct 2005*

To be Sub Armr

Nb Sub Rajinder Singh (JC-756073L), 06 Nov 2005/01 Feb 2004*

Nb Sub Kameshwar Pandey (JC-756834L), 17 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Munjo Manohar Yallappa (JC-756350L), 19 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Dilip Kumar Mandal (JC-756303N), 01 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Karambir Singh (JC-756126Y), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Bigan Sharma (JC-756255Y), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Ramesan M (JC-756256F), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub M Krishnan (JC-756306F), 22 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Mohan Kumar Singh (JC-756304W), 12 Nov 2005/01 Sep 2005

To be Sub DVR (MT)

Nb Sub Raghu P G (JC-757525P), 01 Sep 2005

Nb Sub Siraj Mandal (JC-756555A), 08 Nov 2005/01 Sep 2004*

To be Sub Maj Tech

Sub Brij Mohan Lal Dixit (JC-748631M), 01 Oct 2005

Sub Shyam Murari (JC-748242M), 01 Oct 2005

Sub Rajendra Prasad Yadav (JC-748292X), 01 Nov 2005

To be Sub Maj Artz (EC)

Sub Rishi Pal Singh (JC-751315Y), 01 Oct 2005

To be Sub Technical

Nb Sub Narayan Chandra Das (JC-755908H), 25 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Jitender Kumar (JC-755783W), 09 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Raja Kuar (JC-755771F), 16 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub S Bhoopathi (JC-755933F), 22 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Bindeshwari Prasad (JC-755779N), 23 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Mohan Lala Tripathi (JC-755768F), 14 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Om Prakash (JC-755769K), 14 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Vimal Kumar (JC-755778L), 12 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Girbar Singh (JC-755782N), 14 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Kulbir Singh Bist (JC-755786K), 28 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Borase Pandurang Rajaram (JC-755444W), 14 Oct 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Dinesh Chandra (JC-755970P), 01 Nov 2005

Nb Sub Narendra Singh Gusain (JC-755874A), 12 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Ram Babu Sharma (JC-755878W), 21 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub A K Das (JC-755484X), 19 Sep 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Rohitashva Lamba (JC-755877N), 30 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Jiban Chandra Lowha (JC-755846N), 12 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Madan Kumar Singh (JC-755848Y), 14 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Lallan Yadav (JC-755844H), 28 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Shailendra Dubey (JC-755897F), 19 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Mangal Ram (JC-755896Y), 10 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Jawahar Lal (JC-753393P), 12 Nov 2005/01 Oct 2002*

Nb Sub R Gunachandran (JC-755760P), 10 Nov 2005/01 Oct 2005*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Pramod Kumar (JC-757341W), 17 Oct 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Raj Kumar (JC-756520K), 25 Oct 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Bimal Kishore Sharma (JC-756918Y), 22 Nov 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Udayavir Singh Yadav (JC-757089H), 24 Nov 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Radhey Shyam (JC-757269L), 04 Dec 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Vijay Singh (JC-757274W), 02 Dec 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub B L Narasimalu (JC-757770X), 21 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Sushil Ranjan Paul (JC-754922H), 24 Nov 2005/04 Oct 2005*

Nb Sub P C Ghosh (JC-757163Y), 24 Nov 2005/28 Jun 2005*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Bishnu Papa Mishra (JC-756087L), 21 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Shri Pal Singh Som (JC-756174Y), 18 Nov 2005/01 Oct 2005*

To be Sub Clerk (GD)

Nb Sub Ramanand Yadav (JC-754198K), 23 Nov 2005/01 Nov 2005*

To be Sub (DW)

Nb Sub Amresh Kumar Verma (JC-756843M), 25 Nov 2005/01 Oct 2004*

Nb Sub Prabir Kumar Kar (JC-757514N), 21 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Harnder Singh (JC-757566Y), 24 Nov 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Ram Chander Sharma (JC-757824N), 28 Nov 2005/01 Nov 2005*

To be Sub (Armr)

Nb Sub Surendra Singh (JC-755820Y), 24 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Gurmej Singh (JC-756179X), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Brajmohan Singh Kushwaha (JC-756254W), 26 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Ram Naresh Singh (JC-756531M), 22 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Sheik Asrafuddin (JC-756315H), 28 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Narayan Chandra Joshi (JC-756723N), 25 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Ram Nath (JC-756835N), 28 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Kallbhor Prakash Narayan (JC-756837Y), 21 Nov 2005/01 Oct 2005*

To be Sub REC (Mech)

Nb Sub G M Panicker (JC-752266N), 01 Nov 2005/01 Mar 2004*

To be Sub Maj Tech

Sub Kishan Singh Kholia (JC-747279F), 23 Feb 2005/01 Jan 2005*

Sub Birendra Nath Ghosh (JC-747133N), 01 Oct 2004

Sub Mohan Lal (JC-747579H), 22 Jan 2005/01 Jan 2005*

Sub Ram Udar Prasad Thakur (JC-747473W), 04 Mar 2005/01 Jan 2005*

Sub Rana Binod Kumar Singh (JC-747711X), 01 Mar 2005

Sub Sube Singh (JC-747809L), 22 Mar 2005/01 Jan 2005*

Sub Rama Shankar Prasad (JC-747655K), 01 Apr 2005

To be Sub Maj Clk (GD)

Sub K P Wankhede (JC-747040Y), 01 Apr 2005

To be Sub Maj DW

Sub Satya Vir Singh (JC-750677N), 01 Mar 2005

To be Sub Tech

Nb Sub Kalaparti V Ravi Babu (JC-755001P), 19 Nov 2004/01 Aug 2004*

Nb Sub Srinivasa Rao P V (JC-755487L), 01 Jan 2005/01 Nov 2004*

Nb Sub Jarnail Singh (JC-755471A), 01 Feb 2005

Nb Sub Bishwa Nath Prasad (JC-755474N), 01 Mar 2005

Nb Sub Chaitanya Karmakar (JC-755707K), 01 Mar 2005

Nb Sub Barister Tiwari (JC-754251K), 01 Mar 2005/01 Nov 2003*

Nb Sub Samudra Gupta (JC-755011Y), 01 Sep 2004/01 Aug 2004*

Nb Sub Ashok Kumar Sarmotia (JC-755717N), 01 Feb 2005

Nb Sub Lal Singh (JC-755492W), 01 Mar 2005

Nb Sub Baljit Singh (JC-755002X), 03 Mar 2005/08 Dec 2004*

Nb Sub Santosh Kumar Shakya (JC-755616A), 01 Apr 2005

Nb Sub Venkappa Shetty M (JC-755571L), 01 Apr 2005

Nb Sub Ebrahim Khan (JC-755558F), 01 Apr 2005

Nb Sub Ram Niwas (JC-755567H), 01 Apr 2005

Nb Sub Girish Chandra Joshi (JC-755615X), 01 Apr 2005

Nb Sub Ranjeet Singh Jat (JC-755673F), 01 Apr 2005

Nb Sub Niranján Panda (JC-755587W), 01 Apr 2005

Nb Sub Balbinder Singh (JC-755704W), 01 Apr 2005

Nb Sub Jaswant Singh (JC-755581P), 01 Apr 2005

Nb Sub Pamula Lukaprasad Rao (JC-755552A), 01 Apr 2005

Nb Sub Jagat Singh (JC-755362N), 01 Apr 2005

Nb Sub G B Aatmaram (JC-755580M), 01 Apr 2005

Nb Sub Labh Singh (JC-755564P), 01 Apr 2005

Nb Sub Mukesh Kumar (JC-755360H), 01 Apr 2005

Nb Sub Ranbir Singh Minhas (JC-755586N), 01 Apr 2005

Nb Sub Mahendra Singh (JC-755359N), 01 Apr 2005

Nb Sub Stanley Joseph (JC-755561F), 01 Apr 2005

Nb Sub Uday Narayan (JC-755560Y), 01 Apr 2005

Nb Sub Ramawatar Singh (JC-755562K), 01 Apr 2005

Nb Sub D Mandhar Vishwanathji (JC-755617H), 01 Apr 2005

Nb Sub Birendra Prasad (JC-755525W), 01 Apr 2005

Nb Sub Dinesh Prasad Singh 9JC-755465N), 01 Feb 2005

Nb Sub Kengam Surya Rao (JC-755253F), 18 Feb 2005/ 01 Jan 2005*

Nb Sub Om Prakash (JC-756004W), 01 Mar 2005

Nb Sub Sispal Singh (JC-755460N), 12 Mar 2005/01 Feb 2005*

Nb Sub Guligari Amarnath (JC-753609L), 16 Mar 2005/ 01 Nov 2002*

Nb Sub Bamaniya Vijay Kumar S (JC-755568L), 01 Apr 2005

Nb Sub Rajmal (JC-755582X), 01 Apr 2005

Nb Sub Samey Singh (JC-755524H), 01 Apr 2005

Nb Sub Surender Singh (JC-755527F), 01 Apr 2005

Nb Sub Ramesh Kumar K (JC-755365F), 01 Apr 2005

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-755563M), 01 Apr 2005

Nb Sub M Ramesh (JC-755366K), 01 Apr 2005

Nb Sub Bijaya Ketan Kar (JC-755526Y), 01 Apr 2005

Nb Sub S R Ram Bhim Rao (JC-755569N), 01 Apr 2005

Nb Sub Jawar Singh (JC-755573W), 01 Apr 2005

Nb Sub Narayanan K P (JC-755576K), 01 Apr 2005

Nb Sub Rambir (JC-755585L), 01 Apr 2005

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Rajbir Singh Shahravat (JC-757212W), 21 Mar 2005/01 Feb 2005*

Nb Sub Janak Raj (JC-756713K), 28 Mar 2005/01 Feb 2004*

Nb Sub Vijay Kumar Upadhay (JC-755827H), 28 Mar 2005/08 Dec 2004*

Nb Sub Ananda Raj K (JC-755943L), 24 Mar 2005/01 Sep 2003*

Nb Sub Ram Sevak (JC-757085M), 16 Mar 2005/01 Aug 2004*

Nb Sub Ram Lal Yadav (JC-757270A), 23 Mar 2005/01 Feb 2005*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Chandra Pratap Pandey (JC-754529A), 21 Mar 2005/01 Mar 2005*

Nb Sub Chandrika Prasad Tiwari (JC-754536W), 01 Apr 2005

To be Sub REC Mech

Nb Sub Bade Subhash Tatyaba (JC-751909N), 28 Mar 2005/01 Oct 2001*

Nb Sub Keshappa (JC-752309X), 28 Mar 2005/01 Feb 2005*

To be Sub DW

Nb Sub Suresh Chand (JC-756948W), 21 Mar 2005/08 Dec 2004*

Nb Sub Dev Karan Meena (JC-756345A), 04 Jan 2005/ 01 Aug 2004*

Nb Sub Nand Lal Singh (JC-755986A), 05 Apr 2005/ 08 Dec 2004*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Devendra Singh (JC-753867L), 01 Jan 2005

To be Sub Maj Tech

Sub David John (JC-748497M), 22 Jul 2005/01 Jul 2005*

Sub Surinder Singh (JC-748105N), 01 Aug 2005

Sub Braj Bihari Mishra (JC-748214A), 01 Aug 2005

To be Sub Maj Artzn (EC)

Sub Pyare Lal (JC-751198Y), 02 May 2005/01 May 2005*

To be Sub Tech

Nb Sub Satheesh K (JC-755519H), 01 Mar 2005

Nb Sub Prem Chand (JC-755355X), 01 Apr 2005

Nb Sub Duli Chand Jhatia (JC-755554L), 01 Apr 2005

Nb Sub Ambika Prasad Anand (JC-754523Y), 02 Jun 2005/01 Dec 2003*

Nb Sub Lalit Mohan Tiwari (JC-755534X), 20 Jun 2005/ 01 May 2005*

Nb Sub Karambir Singh Shaharavat (JC-754950P), 28 Jun 2005/01 May 2005*

Nb Sub J Selvam (JC-755536K), 21 Jun 2005/01 May 2005*

Nb Sub Hiresh Nath (JC-753452W), 30 Jun 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Mohan Tiwari (JC-755538N), 15 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Dhir Singh (JC-755540L), 16 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Vijayan G (JC-755636N), 10 Jun 2005/01 May 2005*

Nb Sub Ravi Shankar Keshri (JC-755638Y), 20 Jun 2005/01 May 2005*

Nb Sub Anil Kumar Shukla (JC-755643K), 05 Jul 2005/
01 May 2005*

Nb Sub Ashok Kumar Samal (JC-755649L), 21 Jul 2005/
01 Jun 2005*

Nb Sub Mithilesh Gupta (JC-755652L), 13 Jul 2005/
01 Jun 2005*

Nb Sub Umed Singh (JC-755655Y), 16 Jul 2005/01 Jun
2005*

Nb Sub A K Roy (JC-755714A), 23 Jun 2005/01 May
2005*

Nb Sub Surender Singh Rawat (JC-756297L), 01 Jun
2005/01 May 2005*

Nb Sub Girija Shanker (JC-755859L), 16 Jul 2005/
01 Jul 2005*

To be Sub Technical (AVN)

Nb Sub Anil Kumar (JC-756497F), 06 Jun 2005/01 Mar
2005*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Tara Chandra Joshi (JC-753707L), 04 Jul 2005/
01 Sep 2004*

Nb Sub Satyavir Singh (JC-753956K), 23 May 2005/
01 May 2005*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-754002L), 21 Jul 2005/
01 Jun 2005*

To be Sub REC Mech

Nb Sub Shyam Lal Sharma (JC-752312X), 08 Jun 2005/
01 May 2005*

To be Sub Maj Clk (GD)

Sub K B L Singha (JC-747044P), 26 May 2005/01 May
2005*

To be Sub Technical

Nb Sub V K Mishra (JC-755999X), 25 Dec 2005/01 Dec
2005*

Nb Sub Mundhe Sambhaji Sanivan Rao (JC-755670N),
20 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub S K Sinha (JC-757233H), 08 Dec 2005/01 Feb
2005*

Nb Sub Mohite Vilas Laxman (JC-755893L), 11 Nov
2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Parshuram Ingalagi (JC-755979K), 25 Dec 2005/
01 Dec 2005*

Nb Sub Neki Ram (JC-755972A), 27 Dec 2005/01 Dec
2005*

Nb Sub Bijendra Singh Chahar (JC-755930N), 06 Nov
2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Praveen Kumar Siwatch (JC-755929Y), 17 Nov.
2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Dewanand Shukla (JC-755788P), 29 Nov 2005/
01 Oct 2005*

Nb Sub Sahaji Nanda Nayak (JC-755909L), 12 Dec
2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Virendra Singh (JC-755776A), 01 Dec 2005/01
Oct 2005*

Nb Sub Saseedharan C (JC-755758X), 31 Oct 2005/01
Oct 2005*

Nb Sub Om Prakash (JC-755780H), 07 Nov 2005/01 Oct
2005*

Nb Sub Chandra Mohan Singh (JC-755894N), 28 Nov
2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Susheel Kumar Singh (JC-755892H), 01 Nov
2005/01 Oct 2005*

Nb Sub N J Subramanian (JC-755890X), 17 Nov 2005/
01 Oct 2005*

Nb Sub Sripadh Raja Rao (JC-755891A), 15 Nov 2005/
01 Oct 2005*

Nb Sub N Ravi (JC-756294X), 06 Dec 2005/01 Oct
2005*

Nb Sub Chandrakant Halalli (JC-755854M), 26 Dec
2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Amar Singh (JC-755900W), 08 Nov 2005/01
Oct 2005*

Nb Sub Sushil Kumar (JC-756011L), 24 Dec 2005/01
Dec 2005*

To be Sub Armr

Nb Sub Mohan Chandra (JC-756077F), 26 Dec 2005/01
Sep 2005*

Nb Sub Garja Singh (JC-757087X), 24 Dec 2005/01 Dec
2005*

Nb Sub Sachindanand Singh (JC-756725Y), 10 Dec
2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Pratap Singh (JC-756838F), 13 Dec 2005/01
Oct 2005*

Nb Sub Ram Prasad Borah (JC-756722L), 21 Dec 2005/
01 Oct 2005*

Nb Sub Arvind Kumar Rai (JC-756721H), 02 Dec 2005/
01 Oct 2005*

Nb Sub Jinnat Ali (JC-756718H), 17 Nov 2005/01 Sep
2005*

Nb Sub Thakur Dass (JC-756724W), 19 Dec 2005/01
Nov 2005*

Nb Sub Surinder Singh (JC-756079M), 12 Oct 2005/01
Sep 2005*

Nb Sub Krishna Singh (JC-756122H), 02 Dec 2005/01
Sep 2005

Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-756081K), 07 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Dube Rajendra Laxman P D (JC-756121A), 14 Dec 2005/01 Sep 2005*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Sushil Kumar Yadav (JC-755971X), 27 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Dashrath Lal (JC-757245F), 16 Dec 2005/01 Feb 2005*

Nb Sub Rajeev Sharma (JC-757273N), 30 Nov 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Hari Ram Jakhar (JC-757208N), 20 Dec 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Baliram Pandey (JC-757334A), 28 Dec 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Ram Kumar (JC-757951H), 27 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Madhusudhan Pillai V C (JC-757093L), 23 Nov 2005/01 Sep 2004*

Nb Sub S Prabhakar (JC-757255L), 02 Dec 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Mohan Singh Karki (JC-757811W), 27 Nov 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub C S Tiwari (JC-757262F), 28 Nov 2005/01 Jul 2005*

To be Sub DW

Nb Sub Badan Singh (JC-757521Y), 17 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Samsuddin Ansari (JC-757563L), 16 Dec 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Puran Kanta Nath (JC-757384L), 01 Dec 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Sujan Singh (JC-758058P), 29 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Purna Kante Borah (JC-757574X), 05 Dec 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Shiv Shankar Singh (JC-756947N), 26 Nov 2005/28 Jun 2005*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Prem Singh (JC-754204M), 26 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Kishori Lal (JC-754163K), 09 Nov 2005/01 Oct 2005*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Shiva M (JC-756175P), 26 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Bagaram (JC-756086H), 21 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

Hav Rama Kant Pandey (No. 14537885W now JC-760502Y), 01 Feb 2006/01 Dec 2005*

Hav Khir Mohan Sarkar (No. 14545656A now JC-760504K), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Ram Pravesh Prasad (No. 14544918Y now JC-760506P), 20 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Dilip Kumar Yadav (No. 14544927A now JC-760507X), 19 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Satya Narayanan (No. 14545744W now JC-760508A), 02 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub Mach

Hav Arjun Singh (No. 14547258X now JC-760413A), 30 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Mahalingam T (No. 14547390X now JC-760513L), 23 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub Welder

Hav Hari Dhani Singha (No. 14548849L now JC-760511A), 30 Jan 2006/04 Dec 2005*

Hav Lakshameswar Prasad Singh (No. 14544924M now JC-760533Y), 28 Jan 2006/07 Jul 2006*

Hav Ved Prakash (No. 14549123P now JC-760534F), 27 Jan 2006/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub Metal Smith

Hav Kamal Deo Prasad (No. 14551171N now JC-760414H), 12 Jan 2006/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub REC Mech

Hav Rrajendra Prasad Singh (No. 14546491Y now JC-760514N), 28 Jan 2006/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub Elect (AFV)

Hav Ajith Lal S D (No. 14543567H now JC-760478M), 03 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Hav Sombir Singh (No. 14538963P now JC-760537P), 01 Feb 2006/01 Nov 2005*

Hav to be Nb Sub Elect (MV)

Hav Saswata Bhattacharya (No. 14539697N now JC-760398W), 09 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Tahajul Hoque (No. 14539700H now JC-760540P), 28 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav to be Nb Sub TCM (R)

Hav Vijay Singh Yadav (No. 14676600K now JC-760403W), 17 Jan 2006/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Madhavan M P (No. 14559680F now JC-760496W),
20 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav D S Naykude (No. 14558590N now JC-760497Y),
10 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub Armr

Hav V K Pandey (No. 14548177K now JC-760202X), 04
Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Ram Lala (No. 14550229M now JC-760488X), 30
Dec 2005/01 Sep 2005*

Hav Shyam Bihari (No. 14548416N now JC-760491X),
10 Jun 2006/01 Jan 2006*

Hav Rajvir Singh (No. 14551428N now JC-760493H),
28 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Ashok Kumar Srichandan (No. 14559024A now JC-
760542A), 28 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Parsuram Samal (No. 14559029Y now JC-760543H),
22 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Deepak Prasad Singh (No. 14561464M now JC-
760545N), 22 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Hari Prasad Paurel (No. 14560470N now JC-
760548F), 24 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Bharat Chandra Bharati (No. 14561597H now JC-
760546W), 27 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Ramesh Chandra Mall (No. 14555801A now JC-
760541X), 22 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Raj Singh (No. 14561647H now JC-760589L),
09 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Patil Sadashiv Shripati (No. 14561643M now JC-
760588H), 10 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav to be Nb Sub Armr

Hav B Viswanath Rao (No. 14551321Y now JC-
760582F), 08 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Brahm Dutt (No. 14548377A now JC-760583K),
11 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Nirjit Dowarah (No. 14551399K now JC-760575L),
11 Mar 2006/01 Dec 2005*

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

Hav Naresh Chandra Malo (No. 14545132Y now JC-
760565F), 08 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Shabir Ahmed (No. 1455103 now JC-760561L),
08 Mar 2006/01 Feb 2006*

Durbin Singh (No. 14545122P now JC-760563W),
09 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Tribhuvan Mishra (No. 14545099M now JC-
760555X), 03 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav U B Shanmukha R (No. 14542357W now JC-
760556A), 08 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Katiram Basumatary (No. 14539505L now JC-
760549K), 09 Mar 2006/01 Jan 2006*

Hav Suresh Rai (No. 14545133F now JC-760566K),
08 Mar 2006/01 Mar 2006

Hav B B Jona (No. 14542925W now JC-760552K),
07 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Hav Ram Ayodhya Singh (No. 14538399L now JC-
760536M), 20 Jan 2006/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub TCM

Hav Uday Prasad Roy (No. 14543823M now JC-
760479W), 09 Jan 2006/01 Jan 2006*

HMT to be Nb Sub Tech (Armr)

HMT Sham Lal (No. 14607791Y now JC-760531N),
08 Feb 2006/01 Dec 2005*

HMT Daya Shanker Yadav (No. 14613460N now JC-
760530L), 28 Jan 2006/01 Oct 2005*

HMT R Shanmugraj (No. 14613633A now JC-760622X),
10 Mar 2006/01 Dec 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

HMT Ram Prakash Thakur (No. 14593083Y now JC-
760526H), 27 Jan 2006/25 Dec 2005*

HMT Om Prakash Sharma (No. 14611447L now JC-
760462H), 12 Jan 2006/01 Oct 2005*

HMT Naresh Kumar (No. 14608866X now JC-760449Y),
12 Jan 2006/01 Sep 2005*

HMT Ayothi G (No. 14612496A now JC-760524X),
31 Jan 2006/01 Nov 2005*

HMT J Jagadeesan (No. 14611930P now JC-760522M),
01 Feb 2006/01 Nov 2005*

HMT Nihar Kant Rath (No. 14589194Y now JC-
760447N), 12 Jan 2006/23 Oct 2005*

HMT Dasarath Singh (No. 14611999Y now JC-760523P),
05 Feb 2006/01 Nov 2005*

HMT Sunit Maity (No. 14609661P now JC-760327P),
01 Jan 2006/01 Oct 2005*

HMT Mahendra Singh Nadia (No. 14613110P now JC-
760525A), 31 Jan 2006/01 Dec 2005*

HMT Jayraj P B (No. 14611801P now JC-760463L),
17 Jan 2006/01 Nov 2005*

HMT Arun Kumar Dogra (No. 14612418H now JC-
760605X), 13 Mar 2006/01 Nov 2005*

HMT Saroj Kumar Parhi (No. 14610912A now JC-760604P), 04 Mar 2006/01 Oct 2005*

HMT T Varghese (No. 14611265X now JC-760521K), 30 Jan 2006/01 Oct 2005*

HMT Sukh Chand Sahu (No. 14609347F now JC-760603M), 09 Mar 2006/01 Oct 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'A' Veh

HMT Singh Ram (No. 14609367P now JC-760516Y), 06 Feb 2006/01 Oct 2005*

HMT Arun Kumar Sharma (No. 14612658A now JC-760520F), 27 Jan 2006/01 Oct 2005*

HMT Prakash Chandra Pant (No. 14611048F now JC-760518K), 30 Jan 2006/01 Oct 2005*

HMT S C Mohanta (No. 14610603X now JC-760517F), 30 Jan 2006/01 Oct 2005*

HMT to be Nb Sub Tech (RO)

HMT Hira Lal (No. 14587056Y now JC-760527L), 01 Feb 2006/01 Nov 2005*

HMT Kartick Roy (No. 14606425H now JC-760620M), 08 Mar 2006/01 Feb 2006*

HMT to be Nb Sub Tech (Inst)

HMT Pradeep Parmar (No. 14606821Y now JC-760532W), 30 Jan 2006/18 Dec 2005*

HMT Rajesh Kumar Kumawat (No. 14609899P now JC-760471K), 20 Dec 2005/01 Dec 2005*

HMT Sachindra Sasmal (No. 14605087K now JC-760609N), 13 Mar 2006/01 Mar 2006*

HMT Sher Singh (No. 14599006A now JC-760473P), 01 Jan 2006

Hav to be Nb Sub SKT

Hav Mohan Singh (No. 14544032F now JC-760573A), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

Balwinder Singh (No. 14544033K now JC-760572X), 07 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav to be Nb Sub Welder

Hav A Arulandu (No. 14550020H now JC-760595Y), 14 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Surya Narayan Tiwari (No. 14550488W now JC-760599P), 13 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Sultan Singh (No. 14550313N now JC-760597K), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Mirjkar Shivaji Malhari (No. 14549228Y now JC-760512H), 30 Jan 2006/05 Dec 2005*

Hav Sirasapallai Nooka Raju (No. 14549243N now JC-760510X), 30 Jan 2006/01 Nov 2005*

Hav Chandra Singh (No. 14547200A now JC-760535K), 04 Feb 2006/01 Dec 2005*

Hav Birendra Kumar (No. 14550063X now JC-760596F), 11 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav to be Nb Sub Tech Elect (MV)

Hav Nater Kumar (No. 14607744P now JC-760633K), 07 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Kashi Nath Das (No. 14603631F now JC-760640A), 01 Mar 2006

Hav Balwan Singh (No. 14591373X now JC-760629F), 10 Mar 2006/01 Oct 2005*

Hav Mahesh Chandra (No. 14583485H now JC-760268N), 28 Feb 2006/01 Sep 2005*

Hav Manoj Kumar Rai (No. 14609364F now JC-760635P), 10 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav to be Nb Sub Rec Mech

Hav Jotin Borah (No. 14554054N now JC-760600Y), 09 Mar 2006/01 Jan 2006*

Hav Anil Kumar Prasad (No. 14554076M now JC-760601F), 11 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Sachidananda Singh (No. 14553412F now JC-760515W), 05 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub Machinist

Hav Sukhwinder Singh (No. 14548131F now JC-760539A), 02 Mar 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub TCM (RO)

Hav Patil Laxman Vithoba (No. 14558223F now JC-760538X), 08 Feb 2006/01 Nov 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

HMT Rakesh Singh Bist (No. 14612117Y now JC-759829L), 13 Apr 2005/01 Mar 2005*

HMT Sunil Kumar Mishra (No. 14608911Y now JC-759821Y), 19 Apr 2005/01 Dec 2004*

HMT Kukkala Chandra Sekhar (No. 14609624F now JC-759822F), 11 Apr 2005/01 Dec 2004*

HMT Subhash Singh (No. 14609444Y now JC-759850N), 06 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Radha Krishnan (No. 14584673W now JC-759825P), 25 Apr 2005/01 Feb 2005*

HMT Agya Ram (No. 14611621M now JC-759882W), 29 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Ram Niwas Gurjar (No. 14592654A now JC-759883Y), 02 May 2005/01 May 2005*

HMT Daya Nand Pradhan (No. 14611853L now JC-759878N), 30 Apr 2005/01 Mar 2005*

HMT Satish Kumar (No. 14593895M now JC-759859H),
02 May 2005/01 May 2005*

HMT Trilochan Thatoi (No. 14596278P now JC-
759862H), 06 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Ravindra Nath Dash (No. 14598344L now JC-
759861A), 01 May 2005

HMT Naresh Kumar (No. 14586876Y now JC-759856P),
01 May 2005

HMT Ranjeet Singh (No. 14612087M now JC-
759855M), 01 May 2005

HMT Saroj Samal (No. 14607405F now JC-759869M),
30 Apr 2005/01 Oct 2004*

HMT Ved Prakash (No. 14593592X now JC-759857X),
01 May 2005

HMT Jitendra Kumar Singh (No. 14610414N now JC-
759852Y), 29 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'INP'

HMT Avtar Singh (No. 14567945P Now JC-759871K),
04 May 2005/01 Mar 2005*

HMT to be Nb Sub Tech RO

HMT T Venkata Gopala Krishna (No. 14592117P now
JC-759800H), 01 Apr 2005

HMT Manohar Singh Rathore (No. 14602524N now JC-
759808P), 01 Apr 2005

HMT Almaida David Manvel (No. 14604301P now JC-
759810M), 01 May 2005

HMT Bhanwar Singh (No. 14577771N now JC-
759815L), 01 May 2005

HMT Sunil Kumar (No. 14574376P now JC-759814H),
03 May 2005/01 May 2005*

HMT Sheo Kumar Singh (No. 14609307A now JC-
759812X), 01 May 2005

HMT to be Nb Sub Tech Inst

HMT Bijay Bahadur (No. 14594235F now JC-759796L),
14 Mar 2005/01 Oct 2004*

HMT Krishna Kant Tiwari (No. 14604255L now JC-
759880L), 29 Apr 2005/01 Mar 2005*

HMT to be Nb Sub Tech AEN

HMT Suresh Thazha Veetil (No. 14574199A now JC-
759874X), 30 Apr 2005/01 Mar 2005*

HMT Virendra Kumar (No. 14574167X now JC-
759873P), 03 May 2005/01 Mar 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Ele

HMT Binod Kumar (No. 14571796K now JC-759876H),
01 May 2005/01 Mar 2005*

HMT to be Nb Sub Elect (Elect)

HMT Ram Babu Gupta (No. 14583634L now JC-
759879W), 30 Apr 2005/01 Mar 2005*

HMT Dashrath Lal (No. 14595968M now JC-759898F),
13 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Chittaranjan Das (No. 14599278A now JC-
759902Y), 16 May 2005/01 Apr 2005

HMT to be Nb Sub Tech Gun

HMT Khub Karan Gangwar (No. 14612032H now JC-
759626F), 10 Jan 2005/14 Nov 2004*

HMT Dharam Singh (No. 14606859H now JC-759870F),
30 Apr 2005/01 Feb 2005*

Hav to be Nb Sub Metal Smith

Hav Ashutosh Kumar Rai (No. 14550314W now JC-
759788M), 27 Apr 2005/01 Apr 2005*

Hav to be Nb Sub Rec Mech

Hav Shiv Naresh (No. 14553683Y now JC-759868K),
06 May 2005/01 Apr 2005*

Hav Harbans Singh (No. 14553676H now JC-759867F),
29 Apr 2005/01 Apr 2005*

Hav to be Nb Sub Carp & JNR

Hav V Bala Raman (No. 14548787W now JC-759792P),
01 May 2005

Hav to be Nb Sub Uphol

Hav Upendra Kumar Naik (No. 14561743K now JC-
759795H), 01 May 2005

Hav to be Nb Sub Mach

Hav Devendra Kumar (No. 14543013K now JC-
759928N), 01 Jun 2005

Hav Krishnan Unni J (No. 14543456L now JC-759929W),
01 Jun 2005

Hav Hari Shankar Sharma (No. 14543941A now JC-
759930L), 02 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Hav Ramjeet (No. 14541858K now JC-759459W), 08
Nov 2004/01 Oct 2004*

Hav M Mani (No. 14533935Y now JC-759885K), 12
May 2005/01 Apr 2005*

Hav Birender Singh (No. 14542336A now JC-759770W),
24 May 2005/01 Mar 2005*

Hav Nandeswar Ray (No. 14542221M now JC-759906P),
30 May 2005/01 May 2005*

Hav R Radhakrishnan R (No. 14542366X now JC-
759908A), 04 Jun 2005/01 May 2005*

Hav Man Bahadur (No. 14542305A now JC-759910X),
01 Jun 2005

Hav Sujit Kumar Sinha (No. 14542446P now JC-759909H), 10 Jun 2005/01 May 2005*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Hav Shyo Ram Yadav (No. 14538692H now JC-759916Y), 01 Jun 2005

Hav J K Singh (No. 14538705P now JC-759917F), 01 Jun 2005

Hav Surender Pandey (No. 14538975K now JC-759918K), 01 Jun 2005

Hav Jai Ram Singh (No. 14538889Y now JC-759919M), 06 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav Bikram Mishra (No. 14539094X now JC-759920F), 01 Jun 2005

Hav to be Nb Sub TCM (Line)

Hav Jai Prakash (No. 14676536X now JC-759921K), 03 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav to be Nb Sub SKT

Hav Rajesh Chandra Mishra (No. 14544014Y now JC-759914N), 01 Jun 2005

Hav Rohitesh Kumar (No. 14544023A now JC-759915W), 08 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav Uma Shankar (No. 14543992N now JC-759905M), 01 Jun 2005/01 Dec 2004*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Ramesh Chandra Khokhar (No. 14555923K now JC-759913L), 01 Jun 2005

Hav Surendra Singh Chauhan (No. 14558001M now JC-759893H), 04 May 2005/01 May 2005*

Hav Shio Shankar Chaubey (No. 14554581P now JC-759894L), 13 Jun 2005/01 May 2005*

Hav to be Nb Sub DW

Hav A Katurajan (No. 14542713L now JC-760416N), 05 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Vijay Prakash (No. 14542350M now JC-760417W), 23 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Sheoji Prasad (No. 14542761L now JC-760418Y), 22 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Rohla Ram (No. 14543143M now JC-760419F), 24 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Bans Raj Singh (No. 14542036Y now JC-760420W), 31 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Nanku Ram Bharti (No. 14543489W now JC-760421Y), 26 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Pasupati Mahto (No. 14543524N now JC-760422F), 29 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Ratan Pal Singh (No. 14543812A now JC-760423K), 05 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav D B Thapa (No. 14543960L now JC-760424M), 17 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Om Pal (No. 14543965K now JC-760425P), 02 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Subhash Kumar (No. 14544797H now JC-760426X), 24 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Bankim Chandra Ghosh (No. 14545549Y now JC-760428H), 01 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Dharam Pal Singh (No. 14544598P now JC-760429L), 25 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Vinod Kumar Rawat (No. 14544607L now JC-760430A), 29 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Dharam Pal Singh (No. 14544613Y now JC-760431H), 24 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Anar Singh (No. 14544632K now JC-760432L), 31 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Shiv Das (No. 14544596K now JC-760433N), 28 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Hukma Ram Bheel (No. 14544860M now JC-760435Y), 31 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Diwakar Prasad Thakur (No. 14544853W now JC-760434W), 28 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Tarkeshwar Nath Pandey (No. 14545615W now JC-760436F), 02 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Jai Singh (No. 14543875H now JC-760437K), 23 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Vasudev Sharma (No. 14544862X now JC-760438M), 02 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Ram Niwas Yadav (No. 14545634F now JC-760439P), 12 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Arvind Kumar Sharma (No. 14545637P now JC-760440K), 30 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Zaiazul Zuman (No. 14545708K now JC-760441M), 01 Jan 2006

Hav Brijendra Kumar Singh (No. 14544889P now JC-760442P), 01 Jan 2006

Hav Madhu Sudan Majumdar (No. 14545658L now JC-760443X), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Mahesh Kumar Mishra (No. 14544904Y now JC-760444A), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Rajender Giri (No. 14544910M now JC-760445H), 01 Jan 2006

Hav S P Tripathi (No. 14545848X now JC-760446L), 01 Jan 2006

Hav Chandra Shekhar Patel (No. 14542045A now JC-760503F), 25 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Susil Chandra Konai (No. 14545661L now JC-760505M), 23 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Sri Kant Kushwaha (No. 14545022K now JC-760509H), 23 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Hav Sunil Chandra Bhowmick (No. 14537887F now JC-759762X), 17 Feb 2005/01 Feb 2005*

Hav Hare Ram Singh (No. 14538847M now JC-760097M), 29 Jul 2005/01 Jun 2005*

Hav Shinde Hemani Alias (No. 14539142M now JC-760010A), 01 Aug 2005

Hav Ram Kishan Yadav (No. 14538949H now JC-760096K), 01 Aug 2005/01 Jun 2005*

Hav Asit Das (No. 14538995X now JC-760098P), 01 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Ashok Kumar Singh (No. 14539350F now JC-760102M), 13 Aug 2005/01 Aug 2005*

Hav Ramakant Tiwari (No. 14539513K now JC-760106H), 01 Aug 2005

Hav Kartick Chandra Biswas (No. 14538921H now JC-760009L), 01 Aug 2005

Hav Promod Kumar Shukla (No. 14537374M now JC-760094Y), 23 Aug 2005/01 May 2005*

Hav to be Nb Sub TCM (R)

Hav Yogendra Singh (No. 14539857H now JC-759922M), 21 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Pradeep Kumar Pal (No. 14555929L now JC-760003K), 01 Jul 2005

Hav Lakshman Tiwari (No. 14555323F now JC-759912H), 03 Jul 2005/01 Jun 2005*

Hav R C Nayak (No. 14557198F now JC-760006X), 01 Aug 2005

Hav Lakshi Kant Sinha (No. 14559747P now JC-760004M), 01 Aug 2005

Hav Rabi Nand Singh (No. 14557526K now JC-760008H), 01 Aug 2005

Hav Ram Kishore (No. 14557209H now JC-760007A), 01 Aug 2005

Hav K N Chauhan (No. 14556021F now JC-760005P), 01 Aug 2005*

Hav to be Nb Sub Welder

Hav Yallappa Modekar (No. 14545025X now JC-759999P), 01 Jul 2005

Hav Rameshwar Prasad (No. 14545213Y now JC-760000W), 01 Jul 2005

Hav Gauri Kanta Kachari (No. 14541660L now JC-760001Y), 01 Jul 2005

Hav Mohamad Rafiuddin (No. 14546789H now JC-760093W), 13 Aug 2005/01 Aug 2005*

Hav to be Nb Sub M/Smith

Hav Jagram Singh (No. 14550414P now JC-759931N), 24 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav Satyadev Mishra (No. 14550484A now JC-760091L), 01 Aug 2005

Hav Jagdish Singh (No. 14550359W now JC-760090H), 08 Aug 2005/01 Jun 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Inst

HMT Anand Ballabh Joshi (No. 14604729F now JC-759971P), 29 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Ashok Kumar (No. 14604877M now JC-760053P), 18 Jul 2005/01 Jul 2005*

HMT Pradip Kumar Nayak (No. 14605075P now JC-760054X), 18 Jul 2005/01 Jul 2005*

HMT Lolar Prasad Shukla (No. 14601612X now JC-760052M), 25 Jul 2005/12 Jun 2005*

HMT to be Nb Sub Tech AEN

HMT Patil Bahausaheb Laxman (No. 14575412F now JC-759966K), 01 Jun 2005

HMT Rakesh Babu Yadav (No. 14576373A now JC-760057L), 02 Aug 2005/01 Jul 2005*

HMT to be Nb Sub Tech B Veh

HMT Ramesh Datt (No. 14608554F now JC-759820W), 21 Apr 2005/14 Nov 2004*

HMT Anil Kumar Srivastav (No. 14605913Y now JC-759934F), 02 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Gangadhar Roy (No. 14603784L now JC-759933Y), 02 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Hayant Singh (No. 14587659P now JC-759953M), 02 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Narender Singh (No. 14574149P now JC-759947Y), 06 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Shivaji Yadav (No. 14604713W now JC-759858A), 01 Jun 2005

HMT Atma Prasad (No. 14610662K now JC-759940P), 01 Jun 2005

HMT Anniadurai S S (No. 14610568A now JC-759939A), 08 Jul 2005/01 Jun 2005*

HMT Ramesh Singh (No. 14599569A now JC-760026L), 01 Aug 2005

HMT Rejeev C V (No. 14598728A now JC-760028W),
01 Aug 2005

HMT Sudershan Kumar (No. 14599854Y now JC-760029Y), 01 Aug 2005

HMT Ashok Kumar Singh (No. 14599810F now JC-760027N), 01 Aug 2005

HMT Karunakar Sahu (No. 14595652A now JC-760019P), 01 Aug 2005

HMT Pavithran K (No. 14608002N now JC-760051K),
16 Jul 2005/01 Jun 2005*

HMT Nagaraju S (No. 14598640W now JC-760023X),
01 Aug 2005

HMT R Ravi (No. 14598157M now JC-760021M),
01 Aug 2005

HMT Lal Singh (No. 14597290H now JC-760025H),
01 Aug 2005

HMT to be Nb Sub Tech Elect

HMT P Gopala Krishna (No. 14604798X now JC-759996F), 01 Jul 2005

HMT to be Nb Sub Tech RO

HMT Mandlik Milind Shantaram (No. 14596668X now JC-759997K), 01 Jul 2005

HMT Manoj Kumar Chaturvedi (No. 14599450W now JC-759998M), 01 Jul 2005

HMT Jatadhari Kumbhakar (No. 14585295P now JC-759973A), 01 Jun 2005

HMT P K Samal (No. 14596020F now JC-760126W),
22 Jul 2005/01 Jun 2005*

HMT Ashok Kumar (No. 14604082Y now JC-760030N),
01 Aug 2005

HMT to be Nb Sub Tech Ele

HMT Vindhyachal Upadhyay (No. 14578784X now JC-760056H), 19 Jul 2005/01 Jul 2005*

HMT Gagan Bihari Swain (No. 14576495K now JC-760055A), 15 Jul 2005/01 Jul 2005*

HMT to be Nb Sub Tech A Veh

HMT Satyawan Singh (No. 14572342H now JC-759994W), 01 Jul 2005

HMT Jug Mohan Singh (No. 14612523Y now JC-760018M), 01 Aug 2005

HMT Subhash Chander (No. 14576477F now JC-760011H), 01 Aug 2005

HMT Y S Sangwan (No. 14611205H now JC-760016F),
01 Aug 2005

HMT Mahavir Singh (No. 14612090M now JC-760017K), 01 Aug 2005

HMT Joginder Singh (No. 14579260H now JC-760012L), 01 Aug 2005

HMT Chenna Keswara Rao Dosapati (No. 14608723X now JC-760014W), 01 Aug 2005

HMT Ratan Lal Sharma (No. 14606445W now JC-760013N), 01 Aug 2005

HMT Sushil Chandra Singh (No. 14565150H now JC-760128F), 02 Aug 2005/12 Jun 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Armr

HMT Krishna Kumar C (No. 14605823X now JC-760134P), 27 Jul 2005/01 Jul 2005*

HMT Subhashish Kundu (No. 14606342X now JC-760133M), 25 Jul 2005/01 Feb 2004*

HMT to be Nb Sub Tech Gun

HMT Jaswinder Singh (No. 14610797L now JC-760127Y), 01 Aug 2005/12 Jun 2005*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Hav Ram Naresh (No. 14536151H now JC-759907X),
06 Jun 2005/01 May 2005*

Hav Deg Lal Sharma (No. 14542452N now JC-759911A),
06 Jul 2005/01 Jun 2005*

Hav Hai Ram Patar (No. 14542721K now JC-760116M),
25 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Awdesch Singh (No. 14542031A now JC-760110L),
28 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav V P Mandal (No. 14542837A now JC-760120P),
01 Aug 2005

Hav Ram Singh (No. 14542896M now JC-760123H),
01 Aug 2005

Hav Mahipal Singh (No. 14542813W now JC-760118K),
01 Aug 2005

Hav Pati Ram (No. 14542902P now JC-760124L),
01 Aug 2005

Hav Shiv Bhuwan Tripathi (14537745K now JC-760122A), 01 Aug 2005

Hav Arbind Kumar Jha (No. 14541465N now JC-760109W), 03 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Dashrath Dhondiba Khot (No. 14542798M now JC-760111N), 03 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Vijay Kumar Singh (No. 14542680L now JC-760117P), 03 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Pedarla Sadasiva Rao (No. 14542318X now JC-760112W), 31 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Gajinder Choubey (No. 14542641M now JC-760115K), 01 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav to be Nb Sub Mech

Hav Tarun Chandra Kalita (No. 14543958N now JC-760002F), 23 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Santosh Kumar (No. 14545835A now JC-760085X), 01 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Dharam Vir Singh (No. 14545864P now JC-760086A), 01 Aug 2005

Hav to be Nb Sub AVF (AF)

Hav Kadam Mangesh Keshav (No. 14538810L now JC-760100F), 01 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav to be Nb Sub AVF (INP)

Hav Mohan Bahadur Thapa (No. 14535981M now JC-760099X), 03 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav to be Nb Sub Armr

Hav Pawan Kumar (No. 14546631A now JC-760108N), 01 Aug 2005/01 Apr 2004*

Hav Ramesh Chandra Joshi (No. 14543786K now JC-760107L), 01 Aug 2005/01 Dec 2003*

Hav to be Nb Sub REC Mech

Hav Braja Babu Singha (No. 14553705M now JC-760088L), 01 Aug 2005

Hav Jagdish Chandra Mina (No. 14553723P now JC-760089N), 01 Aug 2005

To be Sub Maj Tech

Sub Sadasivian K G (JC-747540W), 05 May 2005/01 May 2005*

Sub S K Sharma (JC-748219Y), 01 Sep 2005

Sub Jay Krushna Nanda (JC-748755F), 01 Oct 2005

Sub Paranabandhu Nayak (JC-748197L), 02 Nov 2005/01 Nov 2005*

Sub Jaswant Singh (JC-748224K), 01 Oct 2005

Sub Virender Singh (JC-748198N), 01 Nov 2005

To be Sub Maj Artzn (EC)

Sub Nagayya Hire Nath (JC-751148X), 17 Oct 2005/01 Sep 2005*

Sub M A Gafoor (JC-751157P), 01 Sep 2005

Sub Gian Chand (JC-751950K), 01 Oct 2005

Sub Prafulla Kumar Pallai (JC-751185N), 13 Aug 2005/01 Aug 2005*

To be Sub Maj Rec Mech

Sub Rajimohan P C (JC-748913L), 01 Oct 2005

To be Sub Technical

Nb Sub Subhash Chandra (JC-755542W), 10 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Jose Thomas (JC-755712P), 01 Oct 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Jagdale DB (JC-755690F), 29 Aug 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Kavinder Singh (JC-755691K), 26 Aug 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Anand Kumar (JC-755683L), 27 Sep 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Satyendra Singh Yadav (JC-755685W), 03 Oct 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Krishnu Ram (JC-755692M), 25 Aug 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Raghubir Singh (JC-755870K), 01 Sep 2005

Nb Sub Shiv Kumar Sharma (JC-755928W), 01 Sep 2005

Nb Sub Suraj Pal (JC-755808X), 03 Sep 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Murlidharan T P (JC-755684N), 28 Sep 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Yashpal Singh (JC-755747L), 08 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Prithvi Singh Chamar (JC-755622F), 11 Oct 2005/01 Jan 2004*

Nb Sub Subhash Sarkar (JC-755867K), 07 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Virendra Singh (JC-755803Y), 08 Oct 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Dev Singh (JC-755700A), 06 Oct 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub N Venketeswara Rao (JC-756094F), 06 Oct 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub S N S Yadav (JC-755451N), 17 Oct 2005/01 Feb 2005*

Nb Sub Nayan Ballabh Nayak (JC-755753Y), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Mahavir Singh (JC-755697L), 01 Sep 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub N Muthu Krishnan (JC-755759A), 05 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub A V Ramesh Babu (JC-755931W), 05 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Jag Mohan Singh (JC-755845L), 07 Nov 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Santosh Kumar (JC-755708M), 31 Oct 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Mohan Kumar K P (JC-755676P), 09 Nov 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Chaman Singh (JC-755761X), 09 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Mahipal Yadav (JC-752541H), 24 Oct 2005/
28 Jun 2005*

Nb Sub Abani Achararya (JC-755719Y), 15 Oct 2005/
01 Jul 2005*

Nb Sub R R Yadav (JC-755452P), 25 Oct 2005/01 Feb
2005*

Nb Sub Raghunath Behera (JC-755476Y), 27 Aug 2005/
01 Jun 2005*

Nb Sub Omshanker Singh (JC-755755K), 06 Oct 2005/
01 Sep 2005*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Ajir Bihari Ojha (JC-757281M), 26 Aug 2005/
01 Jul 2005*

Nb Sub Amarjit Singh (JC-757337N), 09 Sep 2005/
01 Aug 2005

Nb Sub Anil Kumar Mishra (JC-757553F), 01 Sep 2005

Nb Sub Chepuru Brahmachari (JC-757555H), 13 Sep
2005/01 Sep 2005*

Nb Sub N A Farooqui (JC-756223W), 30 Sep 2005/
28 Jun 2005*

Nb Sub Jagdish Singh Rawat (JC-756856K), 07 Oct
2005/28 Jun 2005

To be Sub Tech (AVN)

Nb Sub G Vijyavel (JC-756501Y), 19 Sep 2005/01 Jul
2005*

To be Sub Artzn (AVN)

Nb Sub Lam Madaw Swdhana Rao (JC-754751F),
20 Oct 2005/01 Sep 2005*

To be Sub Clerk (GD)

Nb Sub Y S Singh Yadav (JC-754134Y), 04 Oct 2005/
01 Jun 2005*

Nb Sub J S Sirohi (JC-754110P), 29 Aug 2005/01 Aug
2005*

Nb Sub Kartar Chand (JC-754162L), 01 Sep 2005

To be Sub Armr

Nb Sub Mohan Das K (JC-755819K), 19 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub S Rama Chandran (JC-756076Y), 21 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Om Pal (JC-756078K), 21 Oct 2005/01 Sep
2005*

Nb Sub Mithilesh Kumar Tiwari (JC-756083P), 19 Oct
2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Dhruvandev Pandey (JC-756084X), 07 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Ram Prayag Singh (JC-756258M), 19 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Bhuwan Chandra Pathak (JC-756123L), 19 Oct
2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Krishna Mohan Mishra (JC-756127F), 20 Oct
2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Raj Kumar Rishi (JC-756180M), 17 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Ram Chandra (JC-756836W), 18 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Sadasivan K (JC-756719L), 10 Oct 2005/01 Sep
2005*

Nb Sub Ram Naresh (JC-756080F), 18 Oct 2005/01 Sep
2005*

Nb Sub R U Khan (JC-756530N), 27 Oct 2005/01 Sep
2005*

Nb Sub Balakrishna Tripathi (JC-756129P), 31 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Jai Prakash Singh (JC-756124N), 25 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Shailesh Kumar Dubey (JC-756302L), 03 Nov
2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Sunil Kumar (JC-756125W), 12 Nov 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Shivappa C Gujnal (JC-756132M), 25 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Brahm Deo Prasad Yadav (JC-756305Y), 18 Oct
2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Yogendra Ram (JC-756534K), 24 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Pius Surin (JC-756532Y), 24 Oct 2005/01 Sep
2005*

To be Sub SKT

Nb Sub Faquir Chand (JC-754171L), 12 Jun 2005/
01 May 2005*

To be Sub DW

Nb Sub Kartik Chandra Ghosh (JC-757517W), 01 Sep
2005

Nb Sub Mir Noor Ali (JC-757516N), 01 Sep 2005

To be Sub Rec Mech

Nb Sub N S Choudhary (JC-751987L), 07 Oct 2005/
01 Dec 2001*

HMT to be Nb Sub Tech 'A' Veh

HMT Ashok Kesarkar (No. 14606322K now JC-760245M), 08 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Bhagwan Sahay Jat (No. 14609371X now JC-760320L), 20 Dec 2005/01 Oct 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

HMT Arigela Suryanarayana (No. 14609706K now JC-760263P), 22 Nov 2005/01 Sep 2005*

HMT Mahendra Singh (No. 14607369P now JC-760237N), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Ram Prakash (No. 14608512P now JC-760247X), 19 Nov 2005/01 Sep 2005*

HMT Amarjeet Singh (No. 14608634Y now JC-760252H), 19 Nov 2005/01 Sep 2005*

HMT S Vasimalai (No. 14610275P now JC-760330P), 19 Dec 2005/01 Oct 2005*

HMT Anuraj Jirgyal (No. 14612827W now JC-760338F), 19 Dec 2005/01 Dec 2005*

HMT Ram Kishan (No. 14609386A now JC-760325K), 17 Dec 2005/01 Oct 2005*

HMT Bhagyadhar Biswal (No. 14607414H now JC-760319W), 17 Dec 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

HMT Bidya Nath Singh (No. 14599904Y now JC-760355F), 16 Dec 2005/01 Dec 2005*

HMT Om Prakash (No. 14572489Y now JC-758444F), 23 Dec 2003/01 Jul 2003*

HMT to be Nb Sub Tech Armr

HMT Jitendra Kumar Sahu (No. 14606509W now JC-760282A), 25 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Shambhu Dayal Saini (No. 14612474F now JC-760340Y), 14 Dec 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub Tech Radio

Hav Sukhbir Singh (No. 14579081H now JC-760344P), 20 Dec 2005/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub Armr

Hav Sant Ram Singh (No. 14550365K now JC-760219L), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Meshram S S (No. 14546180L now JC-760184A), 29 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Dinesh Kumar Sharma (No. 14547137W now JC-760362X), 17 Dec 2005/01 Sep 2005*

Hav Binod Bihari (14550583H now JC-760368Y), 19 Dec 2005/01 Oct 2005*

Hav Ram Raj Maurya (No. 14550650H now JC-760370W), 19 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Hukma Ram Manda (No. 14558069N now JC-760307F), 17 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Kishore Chandra Pradhan (No. 14558081F now JC-760302H), 21 Dec 2005/01 Oct 2005*

Hav Gawali Gajan Shamrao (14559719H now JC-760304N), 14 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Pramod Singh (No. 14547606N now JC-760378H), 15 Dec 2005/01 Nov 2005*

Hav Ranbir Singh (No. 14557520H now JC-760379L), 14 Dec 2005/01 Nov 2005*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Hav Mahesh Prasad (No. 14538577H now JC-760312M), 19 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Gularaj Singh (No. 14543170W now JC-760313P), 17 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Hav Suresh Kumar Pandey (No. 14537064F now JC-760295X), 04 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Hav B N Rao (No. 14540516K now JC-760297H), 25 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Sarveshwar Tiwari (No. 14540390P now JC-760298L), 16 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Shivnath Singh (No. 14540241F now JC-760300X), 01 Oct 2005

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Hav Ashok Kumar Pradhan (No. 14542814Y now JC-760119A), 01 Aug 2005

Hav Prem Narayan Tyagi (No. 14542624M now JC-760114F), 10 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Radhakrishnan Pillai R (No. 14542422L now JC-760113Y), 25 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Subhash Singh Maan (No. 14557993F now JC-760050F), 01 Sep 2005

Hav Surender Pal Singh (No. 14558535X now JC-760145F), 01 Sep 2005

Hav N Ravi Chandran (No. 14558029M now JC-760146K), 01 Sep 2005

Hav C Ganesan (No. 14558030F now JC-760147M), 01 Sep 2005

Jadumani Lenka (No. 14558042W now JC-760148P), 01 Sep 2005

Debendra Nath Khuntia (No. 14558046M now JC-760150M), 01 Sep 2005

Hav Mukunda Bharati (No. 14558055N now JC-760151P), 01 Sep 2005

Hav to be Nb Sub SKT

Hav S K Das (No. 14544024H now JC-760141L), 05 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Ram Asrey (No. 14544025L now JC-760142N), 06 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Satyavir Singh (No. 14544030W now JC-760143W), 06 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Surendra Singh Phartyal (No. 14544031Y now JC-760144Y), 23 Aug 2005/01 Aug 2005*

Hav to be Nb Sub Welder

Hav M D Attullah (No. 14545494A now JC-760092N), 06 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav to be Nb Sub Rec Mech

Hav Ram Singh (No. 14553787A now JC-760087H), 30 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Hav Bhakta Bahadur Karky (No. 14539267K now JC-760105A), 02 Sep 2005/01 Aug 2005*

Hav Avdhesh Kumar (No. 14539448P now JC-760103P), 09 Aug 2005/01 Aug 2005*

Hav C Ajay Singh Narayan Singh (No. 14539260A now JC-760104X), 01 Aug 2005

Hav to be Nb Sub TCM (GCE)

Hav Chabil Kumar (No. 14558141Y now JC-760101K), 30 Jul 2005/01 Jul 2005*

HMT to be Nb Sub Tech A Veh

HMT Binod Kumar Singh (No. 14571343Y now JC-759993N), 01 Jul 2005/01 Jun 2005*

HMT Krishna Kumar (No. 14574463H now JC-759995Y), 01 Jul 2005/01 Jun 2005*

HMT Bachchu Singh (No. 14566804N now JC-759992L), 01 Jul 2005/01 Jun 2005*

HMT S P Singh (No. 14611184X now JC-760015Y), 01 Aug 2005

HMT Ananta Kumar Mohanta (No. 14580527Y now JC-760059W), 01 Aug 2005/01 Jun 2005*

HMT Satyawan Singh (No. 14572342H now JC-759994W), 01 Jul 2005/01 Jun 2005*

HMT to be Nb Sub Tech B Veh

HMT Biradar Basgonda Bhimgonda (No. 14595187Y now JC-759991H), 01 Jul 2005

HMT Onkar Singh (No. 14593290L now JC-759981Y), 01 Jul 2005

HMT Ram Pal (No. 14595784N now JC-759986X), 01 Jul 2005

HMT Subdhyan Singh Rawat (No. 14595501F now JC-759988H), 01 Jul 2005

HMT Dilbag Singh (No. 14595870Y now JC-759989L), 01 Jul 2005

HMT Babu Lal Bishnoi (No. 14593641P now JC-759980W), 01 Jul 2005

HMT Kushal Ram Bishnoi (No. 14595158K now JC-759990A), 01 Jul 2005

HMT Harindra Prasad Mishra (No. 14593308W now JC-759982F), 01 Jul 2005

HMT Avdesh Narayan Saxena (No. 14592847A now JC-760058N), 16 Jul 2005/01 Jul 2005*

HMT Sonar Sunil Ashok (No. 14595730M now JC-759984M), 01 Jul 2005

HMT Dinesh Singh Rana (No. 14595780X now JC-759985P), 01 Jul 2005

HMT Suresh Babu K G (No. 14592091L now JC-759979F), 13 Jul 2005/01 Jul 2005*

HMT Suresh Kumar (No. 14595787F now JC-759987A), 01 Jul 2005

HMT Bahadur Prasad Verma (No. 14598240K now JC-760022P), 01 Aug 2005

HMT Gena Ram (No. 14597165Y now JC-760020K), 01 Aug 2005

HMT Varda Viswanandha Rao (No. 14598984P now JC-760024A), 01 Aug 2005

HMT Narendra Singh (No. 14601239H now JC-760038A), 01 Sep 2005

HMT Mantu Ghosh (No. 14601642P now JC-760040X), 01 Sep 2005

HMT Madan Pal Singh (No. 14607142N now JC-760080Y), 01 Sep 2005

HMT M S Kumar (No. 14599938M now JC-760035M), 01 Sep 2005

HMT G C Bhowmik (No. 14600451N now JC-760034K), 01 Sep 2005

HMT N K Singh (No. 14602168Y now JC-760043L), 01 Sep 2005

HMT Rajendran S (No. 14603340F now JC-760064F), 01 Sep 2005

HMT Ramesh Chandra Gouda (No. 14600786L now JC-760037X), 01 Sep 2005

HMT Waghmare Pramod Sopan Rao (No. 14601713L now JC-760041A), 01 Sep 2005

HMT Bhagirath Ram (No. 14603456X now JC-760065K), 01 Sep 2005

HMT M Subramanian (No. 14606421M now JC-760078F), 01 Sep 2005

HMT Ashok Kumar (No. 14603507A now JC-760066M), 01 Sep 2005

HMT Putan Bahadur Singh (No. 14605199K now JC-760070P), 01 Sep 2005

HMT R Babu (No. 14602348F now JC-760060L), 01 Sep 2005

HMT Kathiravan R (No. 14603400L now JC-760063Y), 01 Sep 2005

HMT Virendra Pratap Singh (No. 14603822W now JC-760067P), 01 Sep 2005

HMT Ranaware Pradip Kumar B (No. 14602692M now JC-760062W), 01 Sep 2005

HMT Prithavi Raj Singh Chauhan (No. 14605934P now JC-760074L), 01 Sep 2005

HMT Arun Kumar Choudhary (No. 14605401M now JC-760069A), 01 Sep 2005

HMT Sri Prasad Sah (No. 14602134L now JC-760042H), 01 Sep 2005

HMT Mane Bharat Sakha Ram (No. 14601344Y now JC-760039H), 01 Sep 2005

HMT Santosh Kumar (No. 14606360A now JC-760076W), 01 Sep 2005

HMT Kishan Lal Yadav (No. 14603670H now JC-759840K), 09 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Jagan Nath Singh (No. 14605200N now JC-760071X), 01 Sep 2005

HMT to be Nb Sub Tech Elect

HMT Sayed Samd Sayed Ahmed (No. 14607741N now JC-760031W), 01 Aug 2005

HMT C C Roy (No. 14610189K now JC-760046Y), 01 Sep 2005

HMT Dilbag Singh (No. 14609425N now JC-760045W), 01 Sep 2005

HMT Brajesh Kumar Singh (No. 14587792X now JC-760084P), 01 Sep 2005

HMT to be Nb Sub Tech RO

HMT Karamvir Singh Yadav (No. 14604535Y now JC-760129K), 01 Sep 2005

HMT S Abdul Rahman (No. 14606320Y now JC-760130Y), 01 Sep 2005

HMT Iendave Vishnu Gangaram (No. 14604124A now JC-760048K), 01 Sep 2005

HMT Surender Singh (No. 14613153W now JC-760131F), 01 Sep 2005

HMT Ram Bilas Pal (No. 14613611F now JC-760132K), 01 Sep 2005

HMT to be Nb Sub Tech Elect

HMT Rajesh Mohan (No. 14585528L now JC-759896W), 11 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Baljit Singh (No. 14596960M now JC-759901W), 24 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Ram Kishore (No. 14595552P now JC-759899K), 18 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Shri Ram Sah (No. 14596648K now JC-759900N), 16 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Valemurugan J (No. 14604370L now JC-759969X), 01 Jun 2005

HMT G Jai Shankar (No. 14588846A now JC-759897Y), 18 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Balaji V K (No. 14600780K now JC-759968P), 01 Jun 2005

HMT Rajesh Chandra Rout (No. 14600581W now JC-759967M), 01 Jun 2005

HMT to be Nb Sub Tech AVF AF

HMT Ravindra Kumar Sharma (No. 14601765F now JC-759872M), 11 May 2005/01 Mar 2005*

HMT to be Nb Sub Tech RO

HMT Dharamvir Singh (No. 14560787H now JC-759813A), 01 May 2005

HMT Prem Chand Sharma (No. 14579308L now JC-759972X), 01 Jun 2005

HMT Rajesh Kumar Sharma (No. 14604534W now JC-759811P), 01 May 2005

HMT Udaya Nath Lonka (No. 14586800Y now JC-759974H), 01 Jun 2005

HMT Bimal Kumar (No. 14590422H now JC-759976N), 01 Jun 2005

HMT Gund Arjun Bhagwat (No. 14604281M now JC-759809X), 01 May 2005

HMT Hrusi Kesh Mahanta (No. 14588535M now JC-759975L), 01 Jun 2005

HMT Aswani Kumar Hota (No. 14592912P now JC-759977W), 07 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Sunil Kumar S (No. 14593969W now JC-759978Y), 17 Jun 2005/01 Jun 2005*

T Venkata Gopala Krishna (No. 14592117P now JC-759805F), 01 Apr 2005

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

HMT Majjari Ravi Kumar (No. 14604660H now JC-759828F), 03 May 2005/27 Feb 2005*

HMT Jaivir Singh (No. 14595734H now JC-759860X), 01 May 2005

HMT Raj Kumar (No. 14612786N now JC-759834W), 11 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Narendra Singh Yadav (No. 14599247A now JC-759881N), 02 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Kaptan Singh Yadav (No. 14612664N now JC-759832L), 24 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Suresh Shonoy (No. 14611954Y now JC-759941X), 01 Jun 2005

HMT Solanki Naga Bhai Nathu Bhai (No. 14591379Y now JC-759954P), 01 Jun 2005

HMT Jainendra Kumar (No. 14612465A now JC-759961L), 01 Jun 2005

HMT Santosh Kumar Dash (No. 14608815K now JC-759937P), 01 Jun 2005

HMT Rajbir Singh (No. 14609192K now JC-759957H), 01 Jun 2005

HMT Purna Chandra Korowa (No. 14568169M now JC-759944L), 01 Jun 2005

HMT Rajan T C (No. 14593304A now JC-759955X), 01 Jun 2005

HMT Rajaram Yadav (No. 14570595Y now JC-759945N), 01 Jun 2005

HMT Sailendra Kumar Srivastava (No. 14591045K now JC-759964Y), 01 Jun 2005

HMT Suresh Kumar T N (No. 14608553Y now JC-759713P), 04 Feb 2005/14 Nov 2004*

HMT Ram Niwas Gurjar (No. 14592654A now JC-759883Y), 02 May 2005/01 May 2005*

HMT B J Ramesh Kumar (No. 14579700L now JC-759948F), 04 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Arun Kumar (No. 14610247H now JC-759938X), 02 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Raj Kumar T P (No. 14585996W now JC-759951F), 01 Jun 2005

HMT Rashmi Ranjan Mahapatra (No. 14589561A now JC-759963W), 01 Jun 2005

HMT Om Prakash (No. 14563049K now JC-759943H), 01 Jun 2005

HMT Raval Batuk Rai Man Singh (No. 14591303Y now JC-759965F), 06 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Nalla Loka Nadhu (No. 14588966Y now JC-759962N), 01 Jun 2005

HMT Ved Vyas (No. 14586941N now JC-759952K), 01 Jun 2005

HMT Suman Kumar (No. 14594308H now JC-759863L), 03 May 2005/01 May 2005*

HMT Jai Narayan Mishra (No. 14572052L now JC-759946W), 01 Jun 2005

HMT Shiv Darshan Tripathi (No. 14608603Y now JC-759956A), 01 Jun 2005

HMT Subhash Chandra Mishra (No. 14582449L now JC-759949K), 01 Jun 2005

HMT M D Rafikul Islam (No. 14610512N now JC-759959N), 01 Jun 2005

HMT Tapan Kumar Adak (No. 14584625W now JC-759950Y), 01 Jun 2005

HMT Vinod Kumar Pandey (No. 14609730A now JC-759958L), 01 Jun 2005

HMT Surendra Prakash Sharma (No. 14613058K now JC-759942A), 11 Jun 2005/01 Jun 2005*

HMT Himnat Singh Rathore (No. 14606754Y now JC-759935K), 01 Jun 2005

HMT Chavan Suresh Sadashiv (No. 14610268Y now JC-759932W), 30 May 2005/01 Apr 2005*

HMT Nijalingappa Hukkori (No. 14593886L now JC-759983K), 01 Jul 2005

HMT R Ravi Kumar (No. 14607150M now JC-759936M), 01 Jun 2005

HMT to be Nb Sub Tech ELF

HMT Sunil G (No. 14573589W now JC-759877L), 30 May 2005/01 Mar 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Inst

HMT Narayan Singh Dhami (No. 14605031X now JC-759970M), 13 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav to be Nb Sub Mach

Hav Danial Tirkey (No. 14542549N now JC-759927L), 27 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav to be Nb Sub Uphol

Hav Rajendran V (No. 14557304P now JC-759923P), 23 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav Surjit Singh (No. 14562421K now JC-759924X), 09 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav to be Nb Sub Rec Mech

Hav Bhuwal Ram (No. 14553786X now JC-759925A), 04 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav to be Nb Sub Welder

Hav Ramesh Babu (No. 14547952K now JC-759926H), 01 Jun 2005

Hav to be Nb Sub Skt

Hav Ajit Singh Malik (No. 14543989N now JC-759904K), 16 Jun 2005/01 Oct 2004*

HMT to be Nb Sub Tech Inst

HMT Sree Kumar G (No. 14595139Y now JC-759658K), 21 Jan 2005/01 Oct 2004*

HMT Khalid Ansari (No. 14609702N now JC-760267L), 31 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Gun

HMT C. Devarjulu Chetty (No. 14610276X now JC-759657F), 17 Jan 2005/01 Jun 2004*

HMT Ashis Kumar Thakur (No. 14568582H now JC-759661K), 18 Jan 2005/17 Oct 2004*

HMT Surinder Kumar (No. 14594915F now JC-759667L), 07 Feb 2005/17 Oct 2004*

HMT Alimuddin (No. 14596408M now JC-759670L), 08 Feb 2005/17 Oct 2004*

HMT Ram Diya (No. 14608784P now JC-759675K), 11 Feb 2005/17 Oct 2004*

HMT Shyam Kumar P K (No. 14601167K now JC-759617A), 17 Jan 2005/14 Nov 2004*

HMT M Subramani (No. 14605404A now JC-759620A), 17 Jan 2005/14 Nov 2004*

HMT Lakhi Ram (No. 14605441N now JC-759622L), 12 Feb 2005/14 Nov 2004*

HMT G Venkateswara (No. 14612565L now JC-759627K), 17 Jan 2005/14 Nov 2004*

HMT Om Chand (No. 14609988N now JC-759711K), 02 Feb 2005/14 Nov 2004*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

HMT Ram Bax (No. 14597495X now JC-759776X), 03 Mar 2005/14 Nov 2004*

HMT Ram Mohan (14609349M now JC-759643F), 20 Jan 2005/01 Dec 2004*

HMT Mahendra Kumar Rout (No. 14582087P now JC-759646P), 03 Feb 2005/01 Dec 2004*

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

HMT Padmanabha Pradhan (No. 14608103F now JC-759612F), 10 Feb 2005/14 Nov 2004*

HMT Tentu Rama Rao (No. 14608446X now JC-759629P), 17 Jan 2005/01 Dec 2004*

HMT Narendra Singh Rajput (No. 14609283F now JC-759631M), 07 Feb 2005/01 Dec 2004*

HMT Rakesh Kumar Singh (No. 14609303K now JC-759632P), 19 Jan 2005/01 Dec 2004*

HMT Arvindan V (No. 14611450L now JC-759733H), 01 Mar 2005

HMT Shajith T K (No. 14608650W now JC-759714X), 04 Feb 2005/14 Nov 2004*

HMT Vijay Singh (No. 14609923A now JC-759716H), 04 Feb 2005/01 Jan 2005*

HMT Girja Shankar Sharma (No. 14610606L now JC-759719W), 03 Feb 2005/01 Jan 2005*

HMT G Radha Krishnan Nair (No. 14610821W now JC-759726M), 01 Feb 2005

HMT Naresh Kumar (No. 14611026H now JC-759730P), 01 Mar 2005

HMT Jayanta Roy (No. 14589508P now JC-760236L), 02 Nov 2005/01 Sep 2005*

HMT Ram Pal (No. 14609491W now JC-760256Y), 22 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT R Satyavir Ram Bahadur (No. 14607601F now JC-760238W), 18 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT S V Swami Rao (No. 14609004L now JC-760259M), 19 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Ram Briksh (No. 14608835X now JC-760254N), 26 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Deo Datt (No. 14608162N now JC-760241W), 08 Nov 2005/01 Sep 2005*

HMT Ashok Kumar Dubey (No. 14608828F now JC-760253L), 31 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT O Manikandan (No. 14609557F now JC-760258K), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Radio

HMT Palli Adinarayana (No. 14577248H now JC-759721N), 12 Feb 2005/01 Jan 2005*

HMT K P Sanyasi (No. 14573240Y now JC-760272W), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech AVN

HMT Chandan Kumar Samanta (No. 14558130M now JC-759724F), 03 Feb 2005/01 Jan 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'A' Veh

HMT Jaideo Prasad Singh (No. 14607377A now JC-760246P), 24 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Armr

HMT Chandra Sekaran (No. 14612218M now JC-760288F), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Amar Singh (No. 14613804F now JC-760279A), 22 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Gulab Chand (No. 14613468A now JC-760275K), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Bhagonath Nandi (No. 14613634H now JC-760277P), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT Kishan Lal Kareseya (No. 14613652L now JC-760276M), 11 Nov 2005/01 Sep 2005*

*Granted ante date seniority.

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

HMT Sanivarapu Keerthi Prasad (No. 14607991P now JC-759614M), 17 Jan 2005/14 Nov 2004*

HMT Santosh Kumar Srivastava (No. 14599248H now JC-759844A), 07 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Daler Singh (No. 14597233F now JC-759842P), 01 Apr 2005

HMT Bhupender Singh Rana (No. 14607495N now JC-759845H), 01 Apr 2005

HMT M Selvaraj (No. 14613043F now JC-759839P), 05 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Kulbir Singh (No. 14600007X now JC-759843X), 06 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT K Pradeep Kumar Reddy (No. 14610721L now JC-759827A), 05 Apr 2005/01 Feb 2005*

HMT Harpal Yadav (No. 14612655M now JC-759831H), 05 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Arumugam M (No. 14604709N now JC-759826X), 04 Apr 2005/01 Feb 2005*

HMT Raja A (No. 14609769M now JC-759824M), 21 Mar 2005/01 Jan 2005*

HMT Suresh Babu Korothan (No. 14610895L now JC-759853F), 05 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Lakhneshwar Singh (No. 14609664H now JC-759823X), 05 Apr 2005/01 Jan 2005*

HMT Birabar Patra (No. 14607672H now JC-759846L), 09 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT R Ramesh (No. 14610840F now JC-759851W), 06 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT V Rudraiah (No. 14612593X now JC-759830A), 06 Apr 2005/01 Mar 2005*

HMT Harish Chand Pandey (No. 14613045M now JC-759838M), 08 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT N Jothilal Moorthy (No. 14612879M now JC-759835Y), 05 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Murugan A (No. 14612058X now JC-759854K), 05 Apr 2005/01 Apr 2005*

HMT Jagdamba Prasad (No. 14610756F now JC-759819F), 06 Apr 2005/06 May 2004*

HMT to be Nb Sub Tech Radio

HMT B Satyanarayana (No. 14588452F now JC-759802N), 01 Apr 2005

HMT Rajender Singh (No. 14594320K now JC-759807M), 01 Apr 2005

HMT Rajkumar Yadav (No. 14581876P now JC-759801L), 01 Apr 2005

HMT Dulichand Khudania (No. 14579258L now JC-759800H), 01 Apr 2005

HMT Indiraj Singh (No. 14571741A now JC-759797N), 15 Mar 2005/03 Oct 2004*

HMT Gajare Sanjay Chandra Sha (No. 14590842H now JC-759804Y), 01 Apr 2005

HMT to be Nb Sub Tech Gun

HMT Sukdeb Mandal (No. 14612453L now JC-759712M), 01 Apr 2005

HMT Bhanawade Viney Ramesh (No. 14598232L now JC-759655W), 25 Feb 2005/01 Jun 2004*

HMT P Hanumant Mahadev (No. 14605754M now JC-759818Y), 02 Apr 2005/14 Nov 2004*

HMT Innocent Horo (No. 14597059A now JC-759816A), 31 Mar 2005/14 Nov 2004*

HMT to be Nb Sub Tech GCE

HMT Hardial Singh (No. 14562260M now JC-759775P), 28 Feb 2005/23 Sep 2004*

Hav to be Nb Sub UPHOL

Hav Sukhpal Singh (No. 14560888W now JC-759509W), 31 Dec 2004/01 Nov 2004*

Hav Sant Raj Ram (No. 14555539H now JC-759491L), 10 Dec 2004/01 Oct 2004*

Hav to be Nb Sub TCM (RO)

Hav Narender Kumar (No. 14544429N now JC-759760M), 12 Feb 2005/01 Feb 2005*

Hav Lakshmunnaidu Pedala (No. 14550093P now JC-759779L), 05 Mar 2005/01 Feb 2005*

Hav Shyam Narayan Ray (No. 14551074W now JC-759782L), 05 Mar 2005/01 Mar 2005*

Hav Ram Chandra Gupta (No. 14551083X now JC-759786F), 01 May 2005

Hav to be Nb Sub TCM (Radar)

Hav Shyam Bihari Singh (No. 14539149W now JC-759783N), 01 Apr 2005

Hav Satbir Singh (No. 14538414P now JC-759778H), 08 Apr 2005/01 Feb 2005*

Hav to be Nb Sub TCM (GCE)

Hav Ramesh Chander (No. 14557657P now JC-759785Y), 01 May 2005

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Hav Samar Nath Singh (14538727N now JC-759777A),
03 Mar 2005/01 Feb 2005*

Hav Krishnan V (No. 14538759W now JC-759784W),
01 May 2005

Hav to be Nb Sub DTMN

Hav Pramod Kumar (No. 14554066H now JC-759789P),
01 Apr 2005

Hav Pujari Sanjay Bhima (No. 14559601F now JC-759791M), 01 May 2005

Hav to be Nb Sub Ftr (AFV/AD)

Hav Anand Ballab Tiwari (No. 14561859N now JC-759579P), 27 Jan 2005/01 Nov 2004*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Mahesh Chander Sharma (No. 14557588K now JC-759891X), 01 May 2005

Hav Mohanan C N (No. 14557982P now JC-759892A),
04 May 2005/01 May 2005*

Hav Ajay Kumar Mishra (No. 14555318W now JC-759895N), 06 May 2005/01 May 2005*

Hav Yogendra Prasad Gupta (No. 14557008K now JC-759889A), 01 May 2005

Hav Raj Kumar (14557032A now JC-759890P), 01 May 2005

Hav Ishwar Singh (No. 14557006Y now JC-759888X),
02 May 2005/01 May 2005*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Hav Sapan Kumar Bhomik (No. 14536018A now JC-759886M), 09 May 2005/03 Apr 2005*

Hav to be Nb Sub REC Mech

Hav Ram Niwas (No. 14553647N now JC-759866Y), 01 May 2005/01 Feb 2005*

Hav to be Nb Sub Mach

Hav Devi Singh (No. 14541765P now JC-759790K), 01 Apr 2005

Hav Ch Arjun Singha (No. 14542223X now JC-759793X), 01 May 2005

Hav to be Nb Sub Metal Smith

Hav Pawal James Kullu (No. 14534345M now JC-759787K), 10 Apr 2005/01 Feb 2005*

Hav to be Nb Sub Ptr & Dectr

Hav Ram Nath Yadav (No. 14541278P now JC-759794A), 01 May 2005

*Gtd ante dated seniority.

N. K. KASHMIRA
Under Secretary

No. 442, dated 11th August 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

IC-No., Name & Arm

IC-56320 Vishal Mundhar, AC

IC-56321 Krishnadas T R, Inf

IC-56322 Manjeet Katoch, Inf

IC-56323 Sanjay Bhatia, Engrs

IC-56324 Dhanraj Singh Cheema, Arty

IC-56325 Rajendra Khattri, Engrs

IC-56326 Vikas Sadhotra, AAD

IC-56327 Sangram Singh Rathore, ASC

IC-56328 Charan Preet Singh, Inf

IC-56330 Vikramjeet Singh, Inf

IC-56331 Sartaa Singh Sidhu, Arty

IC-56332 Arun Kumar Singh, Mech Inf

IC-56333 Ajay Kumar, Inf

IC-56334 Rajagopal Chakraborty, Inf

IC-56335 Rahul Singh, Arty

IC-56336 Saurabh Ramachandran, AAD

IC-56337 Praveen Jain, EME

IC-56338 Mritunjay Upadhyaya, Inf

IC-56339 Ashish Mohan Agarwal, AC

IC-56340 Digvijay Singh Hada, Arty

IC-56341 Anup Thapa, Inf

IC-56342 Ranjeet Kumar, AOC

IC-56343 Padala Chandra Shekhar, Inf

IC-56344 Harish Semwal, INT

IC-56345 Himanshu Rawat, Inf

IC-56346 Vinay Chand, Sigs

IC-56347 Ritesh Sharma, Inf

IC-56348 Deepak Kataria, Inf

IC-56350 Bal Bahadur Pun, Inf

IC-56351 Malay Saurav Choudhary, Mech Inf

IC-56353 Rajesh Grover, Inf

IC-56354 Ajay Singh Yadav, AAD

IC-56355 Maninder Deep Singh, AC

IC-56357 Vikas Vashista, Inf	IC-56398 Gaurav Singh Thakur, Arty
IC-56358 Vineet Kumar Gupta, Inf	IC-56399 Deepak Kumar Pandey, EME
IC-56359 Nirmitt Bhatnagar, ASC	IC-56400 Birinder Singh Kular, AC
IC-56360 Dilip Kumar Pradhan, AAD	IC-56402 Sultan Singh, Engrs
IC-56361 Raj Kumr Panda, Arty	IC-56404 Abhishek Koushik, Mech Inf
IC-56362 Ranjit Mathew, Inf	IC-56405 Akhil Mendhe, Inf
IC-56363 Sameir Raina, Inf	IC-56406 D'Souza Xavier Diogo, Arty
IC-56364 Rajeev Bharwan, Inf	IC-56407 Praveen Singh Bisht, Engrs
IC-56365 Vishesh Kumar Sharma, EME	IC-56408 Bhartinder Singh Mann, Int
IC-56366 Paonam Romesh Singh, Inf	IC-56409 Pramod Kumar Chaudhary, Inf
IC-56368 Chandr Shekhar, Inf	IC-56410 Navdeep Goswami, Inf
IC-56369 Meetesh Khajuria, Inf	IC-56411 C Sabrinath, Arty
IC-56370 Sunil Kumar Singh, AC	IC-56412 Narinder Pal Singh, AAD
IC-56371 Sanjay Khan, Arty	IC-56413 Akash Singh, Inf
IC-56372 Radhakrishnan Rajan, Inf	IC-56415 Dhruv Singh Supahia, EME
IC-56373 Prashant Mishra, Inf	IC-56416 Sanjay Jain, AC
IC-56374 Rajpal Singh, Inf	IC-56417 Samrat Sengupta, Inf
IC-56375 Umeshwar Singh, AAD	IC-56418 Ashutosh Sinha, ASC
IC-56376 Kelkar Pushpak Sudhir, Arty	IC-56419 Praveen Kumar, Inf
IC-56377 Gurminder Pal Singh, EME	IC-56420 Ravi Patney, Engrs
IC-56378 Akoijam Jayanta, Arty	IC-56421 K Sanath, Sigs
IC-56379 Sanjay Patil, Arty	IC-56422 Deepak Kumar Joshi, AOC
IC-56380 Venkatesh Prasad, Arty	IC-56424 Sourav Pal, Inf
IC-56381 Bulbul Bhuyan, Inf	IC-56426 Digvijay Singh Bisht, Arty
IC-56382 Ashish Panwar, AC	IC-56428 Mohinder Kumar Shan, Inf
IC-56383 Varendra Paul Singh, AC	IC-56431 Kanwaljit Singh Bajwa, Int
IC-56384 Vinod P K, Sigs	IC-56432 Arvind Saini, Inf
IC-56385 Hardeep Singh Grewal, Inf	IC-56436 Mehinder Kumar, Arty
IC-56386 Umrao Singh Tanwar, Arty	IC-56437 Neelotpal Tyagi, Inf
IC-56387 Shailesh Sharma, Engrs	IC-56438 Rajesh Kumar Singh, Inf
IC-56388 Mrityunja Kumar Upadhyay, Mech Inf	IC-56439 Puneet Sharma, AC
IC-56389 Pushpender Singh Ranawat, Inf	IC-56440 Pushpendra Gohil, Inf
IC-56390 Prabhat Kumar Mishra, Inf	IC-56441 Imon Mukherjee, Inf
IC-56391 Surjeet Lakra, ASC	IC-56442 Vishal Chaudhary, Inf
IC-56392 Sanjay Kumar, Inf	IC-56443 Nitin Mudgal, Inf
IC-56393 Praveen Kumar Sharma, AAD	IC-56444 Vikram Raje Bhosale, Mech Inf
IC-56394 Sanjeev Bajpai, Inf	IC-56445 Pankaj Shukla, Arty
IC-56395 Shantanu Dey, Inf	IC-56446 Hari K Nair, Arty
IC-56397 Varun Bhartiya, Arty	IC-56447 Anand Kumar Singh, Inf

IC-56448 Devendra Kumar, Inf
 IC-56450 Ravi Kumar, Inf
 IC-56452 Clinton Reuben, Inf
 IC-56454 Baljit Singh, ASC
 IC-56456 Rupinder Singh, Arty
 IC-56457 Darshan Sachdeva, Inf
 IC-56458 Niren Sudhir Deshpande, Arty
 IC-56460 Gautam Jha, AC
 IC-56461 Sumit Shah, Inf
 IC-56462 Abhimanyu S Rathore, Inf
 IC-56464 Vinit Narayan, Inf
 IC-56465 Debashish Datta, Sigs
 IC-56466 Rachit Rawat, Inf
 IC-56467 Pranav Aukta, AC
 IC-56469 Rakesh Kumar, AAD
 IC-56470 Imon Samanta, Inf
 IC-56472 Amresh Singh Khangarot, Inf
 IC-56473 Rajni Kant, ASC
 IC-56475 Gaurav Kumar Mishra, Arty
 IC-56476 P Anand Thampi, Arty
 IC-56477 Vineet Kumar Sharma, AOC
 IC-56478 Suraj Subba, Inf
 IC-56481 Abhijit Mukherjee, AAD
 IC-56482 Akash Khanna, AC
 IC-56484 Neeraj Kumar, Sigs
 IC-56487 Rohit Rasaily, Arty
 IC-56490 Ashish Krishna, Arty

—04 May 2006

SHIV RAM BAIRWA
 Dy. Dir.
 MS 8C

No. 443, dated 9th August 2006.—The President is pleased to retire Shri R C Gupta, Under Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30.06.2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri R B Bloni, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30.06.2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri Yogendra Mishra, Section Officer, Ministry of Defence from Government

Service with effect from 30.06.2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Smt. Roop Rani Verma, Private Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30.06.2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY
 Deputy Secretary

(ARMY BRANCH)

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

CORRIGENDUM

No. 444, dated 11th August 2006.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification, published on 09 Apr 2005, under the heading "Permanent Commission" in Regular Army is hereby amended as under :—

Name against Personal No. IC-64299Y

For—Vikas

Read—Vikas Bhardwaj

Name against Personal No. IC-64317W

For Wandare Ashish Annaso

Read—Wandare Ashish Annasaheb

Name against Personal No. IC-64329L

For—Siva Kumar

Read—Siva Kumar Mudhaliar

Name against Personal No. IC-64341M

For—Sunil Kumar Udeek

Read—Sunil Kumar Udeek

Name against Personal No. IC-64344A

For—Tigmanshu

Read—Tigmanshu Verma

Name against Personal No. IC-64350N

For—Kaushlendra

Read—Kaushlendra Saxena

Name against Personal No. IC-64368K

For—Saravanan

Read—Saravanan B

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification, published on 09 Apr 2005 under the heading "Short Service

Commission (on Probation)" in regular Army is hereby amended as under :—

Name against Personal No. SS-40503N

For—Vikas

Read—Vikas Bhardwaj

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification, published on 09 Apr 2005 under the heading "Short Service Commission (on Probation)" in Regular Army is hereby amended as under :—

Name against Personal No. SS-40698K

For—Wandare Ashish Annaso

Read—Wandare Ashish Annasaheb

Name against Personal No. SS-40722P

For—Kaushlendra

Read—Kaushlendra Saxena

Name against Personal No. SS-40747F

For—Saravanan

Read—Saravanan B

Name against Personal No. SS-40781F

For—Sunil Kumar Udeck

Read—Sunil Kumar Udeck

Name against Personal No. SS-40784P

For—Tigmanshu

Read—Tigmanshu Verma

Name against Personal No. SS-40810L

For—Siva Kumar

Read—Siva Kumar Mudhaliar

S. K. SHARMA

Lt Col

AMS 8B